



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 14—जुलाई 20, 2012 (आषाढ़ 23, 1934)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 14—JULY 20, 2012 (ASADHA 23, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 जून 2012

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2012

सं. आरएस-46/2012/55-कार्मिक--राज्य सभा टेलीविजन में लेखा अधिकारी श्री आर. डी. इन्दौरा की सेवाओं को 8 जून, 2012 के अपराह्न से समाप्त कर दिया गया है।

रश्मि गुप्ता, सहायक निदेशक

सं. ए-19012/02/2012-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री आलोक वर्धन चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (बिहार : 86) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड (पीबी-4) तथा 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में 19 जून, 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जून 2012

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

सं. आरएस-42/2/2012/56-कार्मिक--ऋण वसूली अधिकरण-II चंडीगढ़, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, चंडीगढ़ में वसूली अधिकारी के पद से कार्य-मुक्त होने के परिणामस्वरूप श्री बी. एम. एस. राणा, सहायक निदेशक ने 25 जून, 2012 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में कार्य संभाल लिया है।

एम. शशिलेखा नायर, संयुक्त निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बंगलूर-560231, दिनांक 21 मई 2012

सं. 3/1 (1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. एफ. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. जी. के पद पर स्थानापन्न रूप में

दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:--

श्री/श्रीमती/कु.

1. आर. गोपालकृष्णन नायर
2. के. आर. अनन्तनारायणन
3. मरियम्मा माथ्यु
4. बी. प्रसन्ना कुमार
5. थामस वर्गीस
6. एस. अकबर अलि
7. डॉ. ए. के. अनिलकुमार
8. एस. सुब्रमणियन
9. पंकज प्रियदर्शी
10. प्रशांतन ए.
11. के. राधाकृष्णन
12. टी. इलनचेलियन
13. साजी वी. जे.
14. टी. साबू
15. डॉ. राधाकृष्णन टी.वी.
16. एस. कुमार
17. मथाई एम. एस.
18. परितोष जैन
19. राजीव यू.पी.
20. गोविन्द

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 21.10.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं. नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु.		
1. के. शिवन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	उत्कृष्ट वैज्ञानिक
2. शरतचन्द्रन एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
3. डॉ. भानु पंत	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी

1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
4. डॉ. रमेश कुमार आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	
5. हेमचन्द्रन एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	
6. पद्मकुमार ई. एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	
7. शीला डी. एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	
8. विनोद पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	
9. कुन्हीकृष्णन पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	
10. साम के जकारिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	
11. शिबु गोपीनाथ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	
12. पी. राम कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	
13. वी. अशोक	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-जी को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एच के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:--

श्री/श्रीमती/कु.

1. एस. सोमनाथ
2. डॉ. टी. जयचन्द्रन

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. ई. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. एफ. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:--

श्री/श्रीमती/कु.

1. एस. सुजाता
2. रेमा के. पी.
3. एस. पलनी
4. कार्तिकेयन बी.
5. डॉ. आर. कालिमुथु
6. जोस्ना सुसन जॉय

- श्री/श्रीमती/कु.
7. जांसी रोसे के.
8. आर. हरिकृष्णन
9. हनमन्तरी बहुरगी
10. आर. सुरेश
11. आर. एस. पुगलेन्थी
12. टी. रमेश चन्द्रन
13. डॉ. ए. वेणुगोपाल
14. डॉ. बिजु एस.
15. बालचन्द्रन के. पी.
16. गोपकुमार आर.
17. ए. गीता दिनेश
18. दवी टी. जे.

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

- श्री/श्रीमती/कु.
14. एम. एस. गोपाल
15. के. कार्तिकेयन
16. निशांक कुमार
17. जी. सेन्थिल कुमार
18. सुदिप्ता प्रमाणिक
19. वी. संधाना गोपाल
20. मेण्डु तान्दव कृष्ण
21. ई. राजन
22. जोसे पॉल
23. प्रवीण कुमार
24. कार्तिकेयन पी.
25. जी. जयकुमार
26. एम. के. प्रथापन
27. रवि सी. एन.
28. इन्दु गोपन
29. एस. कार्तिकेयन

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. डी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. ई. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

- श्री/श्रीमती/कु.
1. डॉ. दामु बाला सुब्रमण्यम
2. जोजी डेनियल
3. शिनोय के. एस.
4. रामस्वामी के.
5. जोबी ए. के.
6. सामुएल एम. जी.
7. रॉय थनकचन
8. एस. कविता
9. अमित्व मण्डल
10. तुषार आर. फडनिस
11. टी. सुन्दरमूर्ति
12. जी. आन्द्रेनी नीथी माणिकम
13. अनुप पी.

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक-क को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. सी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

- श्री/श्रीमती/कु.
1. अनिल कुमार नायर एस.
2. के. मोहनन
3. रथीश वी. एन.
4. एम. मोहम्मद शमनद
5. के. ए. वर्की
6. जी. सुनिलकुमार
7. रेन्जित एस.
8. राजीव पी.
9. हफिज के. आर.
10. राजेन्द्रन एन.
11. नन्दीकेशन पी.

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. सी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. डी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

श्री/श्रीमती/कु.

1. अभय कुमार सिंह
2. जसिन्था के. डी.
3. अभिषेक कुमार
4. वी. प्रवीण कृष्णन
5. प्रियांका शुक्ला
6. एन. बेन्सन
7. अजित जोसे
8. सुवाशिश तिवारी
9. विजयन एस.
10. के. जी. राजकुमार
11. जैकसन सेबास्टिन
12. डॉ. मोसरफ होसैन मो.
13. दीपक पतिदार
14. मनोज सिंह कथायत
15. आर. कलैवाणी
16. अरविद जितिन ए. जे.
17. निखिल कुमार मवारी
18. अजय कुमार
19. शिवम शुक्ला
20. एबल सी. कुरियन
21. कल्याणरामन आर.
22. नन्द किशोर
23. कैलाश कुमार झा
24. अरुण जार्ज
25. अभिलाष एम.
26. नरेन्द्र कुमार सिंह
27. सतीश चन्द्र मिश्रा
28. दुंगा योगेश्वर राव
29. जॉन पॉल एम. ए.

श्री/श्रीमती/कु.

30. अनूप पी. पी.
31. पी. वेंकट मुत्थाला नाइडु
32. जॉन्स पॉल
33. संजय तपसे
34. विनय उणिक्कृष्णन
35. सतेन्दर कुमार
36. अभिशेक कुमार
37. अमिताभ कुमार अमित
38. आर. पी. जयकुमार
39. वी. पन्नीर सेलवम
40. नव्या पी. के.
41. अशोकन के.
42. स्वाती स्वरूप
43. अनिश गोपीनाथ
44. दिव्या यू. एस.
45. कार्तिक आर.
46. एस. श्रीजीत
47. रथीश के.
48. वसुधा एन.
49. रोबिन वी. टी.
50. सिजो जार्ज
51. मनोज कुमार सिंह
52. नितिन सिंह रघुवंशी
53. स्मृति रंजन पाणीग्राही
54. उणिक्कृष्णन सी. एल.
55. निर्मल रामचन्द्रन
56. तरुण सिंह बघेल
57. स्वपना राज पी. आर.
58. टिना थामस
59. नविन कुमार केस्सोप

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्रीमती बेनजीर सी.पी., वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी. को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. ई. के पद

पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 04.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक-क को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. सी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

श्री/श्रीमती/कु.

1. नीतु टी. के.
2. धन्या चन्द्रन एस.
3. मिनिमोले एम. आर.

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री टी. आर. इन्दुराज, वरिष्ठ तकनीशियन-ख को तकनीकी अधिकारी-ग के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	साम्बमूर्ती एनुगुला	20.07.2011
2.	जोयल राज एस.	16.06.2011
3.	फणी चरण निदमार्थी	01.08.2011
4.	गोवर्धनरेड्डी चिन्ताला	01.08.2011
5.	कपिल कुमार शर्मा	01.08.2011
6.	आर. सुमति	01.08.2011
7.	रेन्जु गंगाधरन	01.08.2011
8.	वीरमणी के.	08.08.2011

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
9.	जयप्रकाश आर.	08.08.2011
10.	गणेश जे.	08.08.2011
11.	कुलदीप शर्मा	11.08.2011
12.	गढवे अमोल नानासाहेब	11.08.2011
13.	अमित कुमार	11.08.2011
14.	पुलकित गोयल	11.08.2011
15.	निशांत सिंह	11.08.2011
16.	ज्योतिष रवींद्रन पिल्लै	11.08.2011
17.	अलेक्स जॉन	11.08.2011
18.	विजित मुकुंदन	11.08.2011
19.	अंकित मित्तल	11.08.2011
20.	जॉन विवियन प्रशान्त ए.	11.08.2011
21.	दर्शना शशिधरन	11.08.2011
22.	एम. पवन कुमार	11.08.2011
23.	अमृता प्रसाद	11.08.2011
24.	एस. श्रीराम	18.08.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारी-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	डॉ. देवी एम. आर.	25.07.2011
2.	डॉ. मीरा कर्ता के.	25.08.2011
3.	डॉ. नितिन अब्राहम	29.08.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को

वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	डॉ. विनीत सी.	10.06.2011
2.	डॉ. उमा के. एन.	10.06.2011
3.	डॉ. निजी मैथ्यू	07.07.2011
4.	डॉ. विजयकुमार एस. नायर	15.07.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	केशवब्रह्मजी करुतूरी	01.08.2011
2.	संगीता जी. आर.	01.08.2011
3.	सनूप एम. के	01.08.2011
4.	पटेल नीरव प्रवीणचंद्रा	10.08.2011
5.	श्रीहरि एम	08.08.2011
6.	जगन्नाथन के	16.08.2011
7.	बी. प्रवीण कुमार	11.08.2011
8.	राहुल कपूर	11.08.2011
9.	प्रखर अग्रवाल	11.08.2011
10.	मंजिल रे	21.09.2011
11.	अभिजीत राठौड़	21.09.2011
12.	हरबीर सिंह	21.09.2011
13.	संचित	03.10.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री बिजु कुमार आर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-क को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 18.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों और दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति का दिनांक
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	सी. एस. बसवण्णा	वरिष्ठ क्रय व भण्डार अधिकारी	30.05.2011
2.	के. मुनिकृष्णय्या	प्रधान, क्रय व भण्डार	06.06.2011
3.	सीएच श्रीनिवासुलु	वरिष्ठ क्रय व भण्डार अधिकारी	12.10.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों व अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति का तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	श्रीधरन सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	31.07.2011
2.	हरिहरन सी के	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.08.2011
3.	सेतुराम के	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	30.09.2011
4.	के. एन. नारायण कर्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	31.10.2011
5.	वी. रवीन्द्रन	प्रधान, का.सा. प्रशासन	31.10.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों एवं अधिकारियों

ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एस. सत्यनारायणा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	31.03.2011
2.	सी. डी. लैलाम्बिका	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.03.2011
3.	एस. जे. प्रसन्ना-कुमारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.03.2011
4.	श्रीनिवासराघवन टी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.03.2011
5.	गोपालन पी.आर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	31.03.2011
6.	ए. सत्यदास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	31.03.2011
7.	टी. के. कृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	30.04.2011
8.	डॉ. एस. राजेन्द्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	30.04.2011
9.	जी. पी. शशिधरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	30.04.2011
10.	ए. बी. विद्याधरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	30.04.2011
11.	एन. नारायण मुर्ती	विशिष्ट वैज्ञानिक	31.05.2011
12.	के. एन. बाल-सुब्रमणियन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.05.2011
13.	डॉ. जार्ज जोसफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.05.2011
14.	डॉ. मन्नील मोहन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.05.2011
15.	पी. प्रभाकरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	31.05.2011
16.	पी रामकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.05.2011
17.	एस.मुत्तु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.05.2011
18.	शशिधरन नायर.एल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	31.05.2011
19.	एस. विजयकुमारन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	31.05.2011
20.	रेत्ताकरन आचारी पी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	31.05.2011
21.	शशिधरन एम.एन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	31.05.2011
22.	डी. सुकुमारन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	31.05.2011
23.	के. आर. चन्द्र-शेखरन नायर	प्रधान पी.एस.डी.	31.05.2012
24.	के.जी.उष्णिक्कृष्णन वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी	नायर	31.05.2011

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
25.	डॉ. राम कृष्ण शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	30.06.2011
26.	वाई.के. दीक्षित	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	30.06.2011
27.	एस. शंकरा अय्यर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.08.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	त्याग पत्र की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	गणेश चलवाडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	17.01.2011
2.	श्रवेतलीना मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	19.04.2011
3.	पी. चंदिनी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	12.05.2011
4.	वेकटेश्वर कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	12.05.2011
5.	अरविंद कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	25.05.2011
6.	अंकुर चट्टोपध्याय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	04.07.2011
7.	श्रीजित शंकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	12.07.2011
8.	सौरभ हर्ष	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	14.07.2011
9.	प्रकाश हरिकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	15.07.2011
10.	निरंजन कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	22.07.2011
11.	रोषिन जे तामस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	01.08.2011
12.	वी. प्रेम कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	26.08.2011
13.	सुधाप्रिया डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	28.09.2011
14.	अतुल बघेल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	13.06.2011
15.	दीक्षांत मल्होत्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	25.11.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री जोसी रे.एच., वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई. ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 19.08.2011 के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	रश्मिता मोहन्ती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	01.01.2012
2.	एस. महालक्ष्मी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	01.01.2012
3.	सौमिक सरखेल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	01.01.2012
4.	जे. गिरीश कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	01.01.2012
5.	आएशा सिद्धिक एस. एम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	02.01.2012
6.	सांब मूर्ति वी. आर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	01.01.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(2)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर के श्री शशि कांत, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी की सेवा को 30.09.2011 के पूर्वाह्न से समाप्त करती है।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 9/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इन्सैट-मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	डी. रवीन्द्रनाथ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
2.	जी. एस. राजु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
3.	एफ. मोइनुद्दीन शरीफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
4.	पी. मुरलीधरा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
5.	सोमसुन्दरा. जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
6.	एस. सुरेश बाबु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
7.	आर. सुब्रमणि	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
8.	एस. एन. जगन्नाथा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी

1	2	3
श्री/श्रीमती/कु.		
9.	गिरीश एम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
10.	एच. एम. मोहना	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
11.	रवि एस. जे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
12.	अविनाश एम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
13.	रेवनकुमार अरलिमट्टी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
14.	आर. उमा महेश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 9/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इन्सैट-मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एम. आर. राजेश कण्णन	08.08.2011
2.	एस. पी. शैलेन्द्र कुमार	11.08.2011
3.	धीरेन्द्र कुमार जीवानी	11.08.2011
4.	जम्बूनाथ कावलूर	23.12.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

दिनांक 29 मई 2012

सं. 2/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकंदराबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	डॉ. एस. वेंकटरामन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	01.01.2012
2.	डॉ. के. प्रमोद कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	01.01.2012
3.	नीरज मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	01.01.2012
4.	सुशिमता मुक्का	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	01.01.2012
5.	राजेश रेड्डी दात्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	01.01.2012
6.	वी. रामकृष्ण रेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	01.01.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 2/1(2)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिंकदराबाद में श्री रजनीश वार्ष्णेय, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्याग-पत्र दिनांक 30.12.2011 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 2/1(2)/2012-I--डॉ. आर. कृष्णन ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिंकदराबाद में विशिष्ट वैज्ञानिक के पद का कार्यभार दिनांक 30.12.2011 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	शिवन्ना जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
2.	एस. सी. रस्तोगी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
3.	डी. बी. चौधुरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
4.	सास्ता प्रसाद आर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
5.	ए. कृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
6.	इफितखर हुसैन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
7.	ए. सुरेश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
8.	बी.वी. प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
9.	के. वी. गोविन्दा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
10.	एन विश्वनाथा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
11.	एन. विश्वनाथा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
12.	एम. आर. त्यागराज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
13.	प्रशांत चक्रवर्ती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
14.	चित्रा राममूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
15.	एच. आर. नागेन्द्र	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
16.	एस. जी. बावें	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
17.	टी. पी. मुरली	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
18.	मनोहर एन सोन्नादा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
19.	विजयकुमार पूजारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
20.	ओ. वी. राघव रेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
21.	एम. कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
22.	के. वी. रविकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
23.	प्रशांत कुमार पोद्दार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
24.	के. पी. राज शेखर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
25.	गणेश कुमार के	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
26.	एस. केशवन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
27.	डॉ. पी. के. महाराणा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
28.	वी. वेंकटेश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
29.	एल. सीताराम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
30.	डॉ. आनन्द कुमार शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
31.	डॉ. एस. वेंकटेश्वर शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
32.	गायकवाड के लक्ष्मण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
33.	लुइस ए	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
34.	डॉ. वी. के. हरिहरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
35.	सी. ए. कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
36.	एस. राधाकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
37.	परिमल कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
38.	एम. शंकरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
39.	श्रीनिवास वी हुल्लगोल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
40.	बी. ए. मैलुवाहना भूपति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
41.	श्रीकांता सी.वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
42.	एच. आर. नारायण-मूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
43.	बी. बन्धोपाध्याय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
44.	मुथुमणि राजन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
45.	प्रदीप के पीटर	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
46.	के. एन. श्यामला देवी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
47.	एच. राममूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
48.	एस. इलुमलाई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
49.	ललिता एस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
50.	वी. सी. सुजाता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई

1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
51. आर. प्रसाद बाबु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
52. रवि कुलकर्णी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
53. शिवप्रकाश बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	
54. एमडी. ट्रेसकुल वारा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 21.10.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	डी. एल. शिरोलिकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
2.	डॉ. सी. एल. नागेन्द्र	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	विशिष्ट वैज्ञानिक
3.	विजयराम राजु सागी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
4.	प्रदीप कुमार गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	मीनु कुणाल अरोरा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
2.	प्रज्ञा श्रीवास्तव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
3.	कौशलेन्द्र कुमार कौशल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
4.	सुभजीत सरकार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
5.	सुमा डी.आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
6.	रघुनन्दन के.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
7.	एस. सुरेश कार्मिक	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी

1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
8.	लीना रामदास शेट	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
9.	सीएच. फणेन्द्रा राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
10.	सुजा पी.वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
11.	शुबो दत्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
12.	अभिषेक सिंह यादव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
13.	शैलेन्द्र कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
14.	पूजा सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
15.	एस. वैशाली	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
16.	सी. आर. रंगराजन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
17.	डॉ. मंजु सुधाकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
18.	एम. बी. पोरेश्वर राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
19.	कुमार एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
20.	बी. एस. प्रसाद	वरिष्ठ वैज्ञानिक/सहायक-क	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी
21.	पी. सतीश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
22.	गौरिशंकर सी.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
23.	रणधीर राय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
24.	सुभाष यादव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
25.	एम. श्रीकांत	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
26.	सौम्यकेतु मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
27.	इर्विलिन लीजा जस्टिस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
28.	राहुल मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
29.	चन्द्रकांत कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
30.	आर. वनिता देवी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
31.	मनोज कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
32.	गायत्री मलहोत्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
33.	संगीता के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
34.	सीएच. श्रीनिवास सत्यप्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
35.	बी. प्रभाकरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
36.	छायाँ दत्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
37.	जगदेवी पाटील	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
38.	जी. एन. बी. प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
39.	शिवानन्द एम कामत	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
40.	जी. रवि चन्द्र बाबु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ

1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
41.	जयकुमार वी.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-क	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी
42.	बी. कार्तिकेयन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
43.	एस. आनन्द	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
44.	एम. नरसिंहा मूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
	पटनायक		
45.	रमेश गुप्ता के. वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
46.	एस. कल्पना	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
47.	जगन्नाथ दास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
48.	वनिता ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
49.	पोनकला रघु बाबु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	माधवराज एस.	30.11.2011
2.	अभिषेक कुमार सिंह	12.01.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्रीमती स्मृती वर्मा, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 31.09.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों व अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	वामन शंकर सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	31.12.2011
2.	के. पी. गोपालकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.12.2011

1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
3.	रमेश टी.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.12.2011
4.	एस. श्रीराम मूर्ती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.01.2012
5.	एस. सी. रस्तोगी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	31.01.2012
6.	एच. आर. चन्द्रशेखर	प्रधान, लेखा व ऑ.वि.ले.	31.01.2012
7.	डॉ. एस. चेणुगोपालन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.01.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के पूर्वाह्न से अपने कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार छोड़ने की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	आर. एल. गायत्री	04.01.2012
2.	सुधीरा के. एस.	06.02.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री सतीश कुमार सिंह, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 07.02.2012 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 8/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	रजत अवस्थी	05.12.2011
2.	जी. परमेश्वरन	19.01.2012
3.	स्मिता कृष्णन	29.02.2012
4.	प्रतिश रंजन प्रधान	16.03.2012
5.	अनुपम भारद्वाज	16.03.2012
6.	आकांक्षा अवनिश भारद्वाजन	16.03.2012
7.	प्रभाकर शरण	16.03.2012

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
8.	अमित कुमार	16.03.2012
9.	सचिन नारंग	16.03.2012
10.	जे. आफ्रिन	16.03.2012
11.	नभानिल भट्टाचारजी	16.03.2012
12.	राजेश कुमार	16.03.2012
13.	अभय बाजपयी	16.03.2012
14.	बालकृष्ण तुलस्य	16.03.2012
15.	रम्या वी.	16.03.2012
16.	योगेश लिंगवाल	16.03.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 11/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो कार्यालय/अं.वि., शाखा सचिवालय, नई दिल्ली में श्री रथिन सेनगुप्ता को अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 21.11.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

दिनांक 31 मई 2012

सं. 8/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	कमलेन्द्र कृष्ण त्रिपाठी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
2.	एन. के. चौधरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
3.	मणिकण्ठन रामदास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
4.	उमंग एम. पारीख	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
5.	मीरा ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
6.	एस. केशव रेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
7.	बुलबुल मुखर्जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
8.	जी. रामलिंगम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
9.	एच. एन. नागराज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
10.	जोसेकुट्टी जॉब	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
11.	वी. सिद्धिरामुलु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 8/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल, बेंगलूर में श्री एम. हेमंत कुमार को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 02.01.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 मई 2012

सं. 12014/2/2009-आईएसएस--राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के निम्नलिखित परीक्षकों (2008 में आयोजित परीक्षा के द्वारा सीधी भर्ती) को 19.04.2012 से स्थायी रूप से कनिष्ठ समय वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम
1.	सुश्री अम्बिका आनंद
2.	सुश्री नेहा कालरा
3.	श्री विवेक श्रीवास्तव
4.	श्री श्री सुस्मित
5.	श्री शिव नाग मल्लेश्वरराव
6.	श्री पुरुषोत्तम वर्मा
7.	श्री सर्वेश्वर माझी
8.	श्री जडेजा लखअधीरसिंह एम. (पीएचसी)

टी. एस. जवाहर, निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2012

सं. ए-32013/05/2010-प्रशा. IV (वि.का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.-I(यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों की विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-I) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31 मई, 2013 तक अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:--

- श्री डी. चौधरी (सीएसएल सं. 4707)
- श्रीमती आशा सोय (सीएसएल सं. 6348)
- श्री कुलदीप कुमार (सीएसएल सं. 7140)

गणेशदत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2012

सं. 44/17/2011-डी एम II--राष्ट्रपति, श्रीमती अर्चना गोयल गुलाटी, भारतीय डाक एवं तार ए एण्ड एफ एस (1989) को गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 01.02.2012 (पूर्वाह्न) से 3 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक प्रतिनियुक्ति आधार पर 37,400/- रुपये--67,000/- रुपये के वेतनमान तथा 10,000/- रुपये के ग्रेड पे में वित्त सलाहकार के रूप में नियुक्त करती हैं।

आशीष कुमार पाण्डा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 जून 2012

सं. 1-18011/08/2012-आई पी एस-IV--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के हरियाणा संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन आई पी एस अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्रीमती नाज़नीन भसीन, आई पी एस (हरियाणा : 2007)	18.08.2011
2.	श्री अभिषेक गर्ग, आई पी एस (हरियाणा : 2008)	22.12.2010
3.	श्री हामिद अख्तर, आई पी एस (हरियाणा : 2008)	22.12.2010

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी
(आई. पी. एस.-IV)

दिनांक 26 जून 2012

सं. I-11014/07/2011-आई.पी.एस.-IV--केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ओड़िसा और राजस्थान सरकारों की सहमति से, एतद्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार, आई.पी.एस. (ओड़िसा : 2007) का विवाह श्रीमती टीना सोनी, आई.ए.एस. (राजस्थान : 2007) के साथ हो जाने के आधार पर, श्री सत्येन्द्र कुमार, भारतीय पुलिस सेवा को ओड़िसा से राजस्थान के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में स्थानांतरित करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी
(आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2012

सं. 20/जी/1243-प्रशा.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री सी. ए. सुब्रमनियन, सी.एस.एस., संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सरकारी सेवा से अपराह्न 31 मार्च, 2012 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2012

सं. 14013/03/2012-एआईएस-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने दर्शाई गई तिथि (तिथियों) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पश्चिम बंगाल संवर्ग में स्थायी करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की देय तिथि
	(सुश्री/श्री)		
1.	रामपद बिस्वास	1996	22.12.2007
2.	कालीपद दास	1997	24.10.2008
3.	इन्द्रनील सेनगुप्ता	1997	24.10.2008
4.	निलंजन चट्टर्जी	1998	17.06.2010
5.	सुकुमार गनई	1998	17.06.2010
6.	सुब्रत दत्त	1998	17.06.2010
7.	श्रीमती डोमा टीशेरिंग शेरपा	1998	06.07.2010
8.	बिस्वाजीत गंगोपाध्याय	1998	12.06.2010
9.	नन्ददुलाल भकत	1999	05.04.2011
10.	मालबिका झा	1999	05.04.2011
11.	शुभासीष मोईत्रा	1999	05.04.2011
12.	अरूप कुमार साहा	1999	05.04.2011
13.	आनंद मोहन चक्रवर्ती	1999	08.04.2011

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2012

सं. 39019/05/2012-स्थापना(ख)--राष्ट्रपति, प्रो. डेविड आर. सिम्लिह, पूर्व कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमूख, अरुणाचल

प्रदेश को दिनांक 25 जून, 2012 (पूर्वाह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है :--

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2012

सं. 2012 का 10 (फा. सं. ए-12025/6/2010-प्रशा.-VI)--राष्ट्रपति निम्नलिखित आई आर एस (आईटी) अधिकारियों को सहायक आयकर आयुक्त (कनिष्ठ वेतनमान) में 15,600--39,100/- रुपए (जमा पीबी-3 में 5,400/- रुपए ग्रेड वेतन) में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख (तारीखों) से उस ग्रेड में वास्तविक क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

2006 बैच (सीएसई 2005)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	पुष्टि की तारीख
1	2	3	4
	(सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)		
1.	अविजीत रक्षित	16.09.1981	18.12.2008
2.	राजेश कुमार मिश्रा	27.05.1977	18.12.2008
3.	राजदीप सिंह	19.08.1980	18.12.2008
4.	हेमन्त गुप्ता	05.09.1980	18.12.2008
5.	अमित कुमार सिंह	05.10.1979	18.12.2008
6.	बेढोबानी चौधुरी	21.01.1980	18.12.2008
7.	सुधांशु धर मिश्रा	06.11.1979	18.12.2008
8.	सुरभि शर्मा	16.02.1981	26.12.2008
9.	आलोक माल्या	29.05.1979	18.12.2008
10.	कल्पना सिंह	15.01.1981	18.12.2008
11.	रोली खेड़ा	14.01.1980	18.12.2008
12.	अजय मोदी	23.12.1978	18.12.2008
13.	प्रियंका सिंह	26.11.1982	18.12.2008
14.	रीचा रस्तोगी	22.09.1978	18.12.2008
15.	रुकमणी अत्री	23.08.1978	18.12.2008
16.	प्रसून काबरा	28.09.1980	18.12.2008
17.	योगेन्द्र मित्तल	26.01.1979	18.12.2008

1	2	3	4
18.	अभिषेख कुमार	02.10.1983	18.12.2008
19.	बनवार सिंह रत्नू	13.01.1976	18.12.2008
20.	राजीव कुमार	05.04.1977	18.12.2008
21.	खैरनर अमोल भरत	16.05.1977	05.01.2011
22.	मो. शदाब अहमद	01.03.1979	29.04.2009
23.	मानु चौरसिया	02.05.1976	29.04.2009
24.	मदनअप्पा गिरी ऐरप्पा	15.03.1975	18.12.2008
25.	राम कुमार यादव	15.08.1972	18.12.2008
26.	कुमार प्रणव	01.01.1973	18.12.2008
27.	सुभाष के. आर.	24.10.1975	07.02.2009
28.	रजत कुमार कुरील	28.07.1975	29.04.2009
29.	उमेश चन्द्र भारती	02.01.1977	18.12.2008
30.	टी. शैरिंग ऑगडा	22.01.1979	18.12.2008
31.	पूनम शर्मा	04.07.1980	29.04.2009

2007 बैच (सीएसई 2006)

1.	नमिता खुराना	18.10.1981	10.12.2009
2.	मिनि चन्द्रन यू	05.04.1981	10.05.2010
3.	दिपी अग्रवाल	15.04.1980	10.12.2009
4.	श्वेता मिश्रा	15.10.1980	10.12.2009
5.	अभिषेख प्रभात	17.12.1979	10.12.2009
6.	प्रवीण वर्मा	09.09.1981	10.05.2010
7.	अपूर्वा भारद्वाज	08.08.1980	10.05.2010
8.	वी. विद्याधर	30.01.1977	10.12.2009
9.	सौरभ सिंह	07.01.1982	10.12.2009
10.	अरजू घोडिया	05.12.1979	10.12.2009
11.	सीता श्रीवास्तव	01.07.1980	10.12.2009
12.	एन. हेमलता	12.04.1981	10.05.2010
13.	अमित कटौच	18.03.1978	10.12.2009
14.	मनीष कुमार झा	15.01.1978	10.12.2009
15.	सुमित कुमार वर्मा	11.09.1978	10.12.2009
16.	दिव्या के. जे.	07.02.1981	10.12.2009

1	2	3	4	1	2	3	4
17.	आलोक सिंह	02.09.1979	10.12.2009	48.	शहनवाज उल रहमान	22.07.1982	10.05.2010
18.	रमन गर्ग	25.08.1979	10.05.2010	49.	राम तिवारी	20.10.1977	10.12.2009
19.	जितेन्द्र मान	14.12.1983	10.05.2010	50.	अमित दुआ	07.10.1977	10.12.2009
20.	एस. सुन्दर राजन	15.12.1980	10.05.2010	51.	देशपांडे सौरभ ग्रीश	08.05.1981	10.05.2010
21.	सूर्या शशवाई शुक्ला	06.05.1982	10.12.2009	52.	आर. एस. अरविन्दक्षन	29.04.1982	10.12.2009
22.	वेनी राज	02.05.1978	10.12.2009	53.	राम प्रकाश मौर्या	12.07.1984	10.12.2009
23.	मेहेन्द्र बिश्नोई	12.08.1980	10.12.2009	54.	मोनिका राणा	19.08.1983	10.12.2009
24.	प्रशांत कुमार मिश्रा	14.01.1981	10.12.2009	55.	विकास सिंह	19.06.1979	10.12.2009
25.	रजत मित्तल	20.03.1980	10.05.2010	56.	लगनप्रीत संधु	03.03.1980	10.12.2009
26.	अनूप सिंह	30.06.1981	10.05.2010	57.	फरहत खान	18.08.1978	10.05.2010
27.	सुधान्तु शेखर	01.03.1982	10.12.2009	58.	सन्दीप कुमार मिश्रा	16.06.1978	10.12.2009
28.	दिप्ती चन्दोला	08.04.1980	10.12.2009	59.	अदित्य शुक्ला	20.06.1981	10.12.2009
29.	वैभव जैन	04.10.1979	10.05.2010	60.	आशीश त्रिपाठी	05.08.1981	10.12.2009
30.	महेश गोपीनाथ जिवाडे	13.12.1978	10.12.2009	61.	वीरेन्द्र सिंह	30.05.1980	10.12.2009
31.	अंचल खांडेलवाल	02.06.1980	10.12.2009	62.	राजेश महाजन	28.11.1977	10.12.2009
32.	रूनी पाल	04.02.1977	10.12.2009	63.	शिन्दे सुधाकर नामदेव	25.05.1979	10.05.2010
33.	पंकज श्रीवास्तव	05.07.1977	10.12.2009	64.	सुमन कुमार	01.03.1977	10.12.2009
34.	कोशलेन्द्र तिवारी	25.09.1976	10.12.2009	65.	रेनुगा देवी पी.	07.05.1977	10.12.2009
35.	विक्रान्त पाल सिंह	20.04.1978	10.12.2009	66.	एच. कबिला	17.04.1982	10.12.2009
36.	अमनिन्द्र सिंह ढोंढसा	22.04.1978	10.12.2009	67.	कीर्ति शंकरात्यायन	26.06.1977	10.12.2009
37.	बिपिन सी. एन.	04.05.1977	10.12.2009	68.	राम प्रकाश रस्तोगी	17.02.1977	10.12.2009
38.	अमित कुमार जैन	04.09.1979	10.12.2009	69.	यशवेन्द्र सिंह	18.11.1980	10.12.2009
39.	मुण्डे विश्वास सोपान राव	24.01.1980	10.05.2010	70.	सी. यमुना	01.12.1978	10.12.2009
40.	एम. अनीता	03.07.1980	10.12.2009	71.	रघु नाथ	05.02.1975	10.05.2010
41.	प्रशांत रंजन	11.03.1979	10.12.2009	72.	शबाना प्रवीण	11.06.1974	10.12.2009
42.	सौरभ कुमार राय	18.11.1978	10.05.2010	73.	मीनाक्षी डोहारे	30.05.1982	10.12.2009
43.	मुकेश जैन	26.03.1982	10.12.2009	74.	जर्नाधनन बी.	03.02.1975	10.12.2009
44.	अमरेश कुमार तिवारी	11.03.1980	10.05.2010	75.	बी. जस्तीन	25.05.1975	10.12.2009
45.	एम. एस. नेत्रपाल	23.06.1980	10.05.2010	76.	रजनी रानी रॉय	29.08.1977	10.12.2009
46.	मानव बंसल	27.10.1979	10.12.2009	77.	सम्राट राही	01.03.1984	10.12.2009
47.	अनुपमा सिंगला	25.12.1980	10.12.2009	78.	तरुणदीप	29.01.1982	10.12.2009

1	2	3	4	1	2	3	4
79.	पवुना सुन्दरी ई.	12.06.1978	10.12.2009	110.	रिन्ती रेन्थली	19.01.1981	10.05.2010
80.	अनूप सिंह	22.01.1978	10.12.2009	111.	प्रेम प्रकाश मीणा	08.08.1978	10.12.2009
81.	मैमन निशा अंसारी	13.08.1978	10.12.2009	112.	बिमल कुमार मीणा	10.08.1976	10.12.2009
82.	बी. रमन जेनयुलु	26.04.1981	10.12.2009	113.	एम. सी. ओमी निगेशन	23.08.1976	10.12.2009
83.	पुरुषोत्तम कुमार	09.04.1980	10.05.2010	114.	सत्यपाल सिंह मीणा	25.09.1979	10.12.2009
84.	विजेन्द्र कुमार	16.12.1978	10.12.2009	115.	रोशन्ता कुमारी मीना	30.6.1980	10.12.2009
85.	बोबडे अमित अशोकराव	23.04.1979	10.12.2009	116.	सिद्धार्थ भीम सिंह मीणा	01.01.1980	10.12.2009
86.	शिवानन्द एच. कलाकेरी	21.07.1975	10.12.2009	117.	कुमार अविकल मनु	04.11.1977	10.12.2009
87.	दास रिगनेश कल्पेश	26.03.1978	10.12.2009	118.	सुमित कौर	19.02.1978	10.12.2009
88.	मुरली मोहन एम.	01.06.1979	10.12.2009	119.	पूजा स्वरूप	03.04.1978	10.12.2009
89.	संजय कुमार यादव	02.12.1978	10.12.2009	आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव			
90.	बी. नवीन कुमार	15.05.1978	10.12.2009	-----			
91.	अमित राज	02.12.1979	10.12.2009	दिनांक 21 जून 2012			
92.	पी. मुथुशंकर	17.06.1979	10.12.2009	सं. 11 (फा. सं. ए-32011/04/2008-प्रशा.-VI--श्री अबनी कान्ता			
93.	राजेश कुमार यादव	30.10.1980	10.12.2009	नायक (96013), संयुक्त आयकर आयुक्त को एतद्वारा 01.01.2009			
94.	किरण डी.	10.04.1979	10.12.2009	अर्थात् उनके तुरन्त कनिष्ठ को दिए जाने की तिथि से पी.बी.-4 में			
95.	नरेन्द्र कुमार नायक	15.01.1980	10.12.2009	37,400--67,000/- + 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन के वेतनमान में चयन			
96.	अभिषेख मेशराम	15.09.1981	10.05.2010	ग्रेड (गैर-कार्यात्मक) में रखा जाता है।			
97.	हुड्डम रोबिन्द्रो सिंह	05.07.1979	10.12.2009	आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव			
98.	मृनाल कुमार दास	26.06.1975	10.12.2009	-----			
99.	इन्द्र सोलंकी	14.06.1977	10.12.2009	दिनांक 22 जून 2012			
100.	पल्वी	07.02.1983	10.12.2009	सं. 12 (फा. सं. ए-32012/01/2012-प्रशा.-VI--निम्नलिखित संयुक्त			
101.	धोके अजय गोपालराव	22.04.1978	10.05.2010	आयकर आयुक्तों को एतद्वारा प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख			
102.	परमार अलपेशकुमार ट्रीकमलाल	09.10.1976	10.12.2009	(तारीखों) से पीबी-4, 37,400--67,000/- + 8,700/- रु. के ग्रेड			
103.	पूनम राय	08.08.1973	10.12.2009	वेतन में प्रवर ग्रेड (गैर कार्यात्मक) में रखा जाता है :--			
104.	उमा शेखर प्रसाद	27.02.1977	10.12.2009				
105.	मोहित मृणाल	01.10.1979	10.12.2009				
106.	वधमारे विपुल दिगम्बर	15.10.1979	10.05.2010				
107.	शशि काजले	04.02.1982	10.12.2009				
108.	चंचल मीणा	15.08.1982	10.12.2009				
109.	क्रांती	05.05.1980	10.12.2009				

1	2	3	4
5.	सुमना सेन	99005	01.01.2012
6.	दीपक तिवारी	99006	01.01.2012
7.	नीहार रंजन पांडे	99008	01.01.2012
8.	चित्तरंजन दास	99009	01.01.2012
9.	अशिमा नेब	99010	01.01.2012
10.	मीरा श्रीवास्तवा	99011	01.01.2012
11.	स्वपना मनु अम्बट	99012	01.01.2012
12.	जी. कृष्ण	99513	01.01.2012
13.	नवीन गुप्ता	99013	01.01.2012
14.	शशि भूषण शुक्ला	99015	01.01.2012
15.	नीरज प्रधान	99016	01.01.2012
16.	नवनीत मनोहर	99017	01.01.2012
17.	शोभन कार	99018	01.01.2012
18.	कुरुविला एम. जोर्ज	99519	01.01.2012
19.	संजोग कपूर	99019	01.01.2012
20.	नैना सोइन कपिल	99022	01.01.2012
21.	सुर्जनी मोहन्ती	99023	01.01.2012
22.	रण सिंह	99024	01.01.2012
23.	चौ. वैकट गोपी नाथ	99025	01.01.2012
24.	एम. राजशेखर	99028	01.01.2012
25.	नरेश शाका	99029	01.01.2012
26.	अनील कुमार पी. चावरे	99030	01.01.2012
27.	पी. डब्ल्यू. अथेली	99530	01.01.2012
28.	एस. मुरली मोहन	99033	01.01.2012
29.	विजय कुमार चट्टा	99034	01.01.2012
30.	कोमिली कृष्ण एस.	99035	01.01.2012
31.	आरसी प्रसाद	99037	01.01.2012
32.	पी. वी. प्रदीप कुमार	99039	01.01.2012
33.	हेमन्त कुमार सी. लेवा	99040	01.01.2012
34.	शेखर एल. गजभैए	99041	01.01.2012
35.	सुनील गौतम	99042	01.01.2012
36.	अजय कुमार	99043	01.01.2012

1	2	3	4
37.	रजनीश डी. बर्मन	99044	01.01.2012
38.	आई. किट्टो जिमोमी	99045	01.01.2012

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2012

सं. ए-12011/18/2006-मा.सं.-II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.06.2012 के का. ज्ञा. सं. 9/9/2012-ईओ (एमएम. I) और कर्नाटक सरकार के दिनांक 22.06.2012 की अधिसूचना सं. डीपीएआर 56 एसएफपी 2012 के अनुसरण में श्री विजय रंजन सिंह, भारतीय वन सेवा (केएन : 1996) को 25 जून, 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. उनका पदनाम निदेशक (उर्वरक) होगा।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2012

सं. ए-12012/3/2011-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के 20 मार्च, 2012 के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सी.एस.-II(ए) के अनुसरण में, सीएसएसएस संवर्ग निजी सचिव के निम्नलिखित स्थायी आशुलिपिक ग्रेड "ए एण्ड बी" (विलयित) (निजी सचिव), जो वर्तमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के "प्रधान निजी सचिव" ग्रेड की चयन सूची 2010 में शामिल किया जाता है :--

1. श्री बी. एल. छिब्बर (क्र.सं. 18/एसएल 1991)
2. श्रीमती सुदर्शन मेंदीरता (क्र.सं. 184/एसएल 1993)
3. श्री तिलकराज (क्र.सं. 274/एसएल 1994)
4. श्रीमती ईवा मित्रा (क्र.सं. 347/एसएल 1995)
5. श्री शंकर कुमार शाह (क्र.सं. 532/एसएल 1997) एवं
6. श्री मुकेश हरित (क्र.सं. 552/एसएल 1997)

यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई सतर्कता मामला तथा अनुशासनिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है। यह भी पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त अधिकारियों ने वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

आनंद प्रकाश, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 08 मई 2012

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2012

सं. ए-11011/1/2004-स्था.-1--राष्ट्रपति द्वारा श्री दीपक कुमार, भा.प्र.से. (यूपी : 90) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में वेतन बैंड (पीबी-4) 37,400--67,000/- रुपए + 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 20 जून, 2012 की पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2012

सं. ए-32013/01/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सीएस-II(ए) के तहत वर्ष 2010 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड की प्रवर सूची में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें 20 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करती हैं :--

1. श्री जे. एन. शर्मा
2. सुश्री सुमन सूद
3. सुश्री सुनित पी. चौधरी
4. सुश्री मधु गोयल
5. श्री सतीश कुमार
6. श्री एस. के. मेहरा
7. सुश्री सुशील वर्मा

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2012

सं. 32012/2/2011-पीपी-स्थापना--राष्ट्रपति, डॉ. आर. मुरली, सहायक निदेशक (कीट विज्ञान) को पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय में प्रोन्नति आधार पर पे बैंड-3 और 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में उप निदेशक (कीट विज्ञान) के पद पर 01.06.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

वन्दना जैन, निदेशक (पीपी-I)

सं. 32011/01/2012-स्थापना-II--राष्ट्रपति द्वारा श्री गौरेलाल दिवाकर, सहायक निदेशक (बीज) की कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में पे बैंड-3 के (15,600--39,100/- रु.) वेतनमान + 6,600/- रु. ग्रेड (जीसीएस-ग्रुप 'ए' राजपत्रित) पर प्रोन्नति आधार पर उसी विभाग में सहायक आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणन/बीज विकास) के रूप में आगामी आदेशों तक 27.04.2012 पूर्वाह्न से नियुक्ति की जाती है।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 15 मई 2012

सं. 32011/5/2012-स्थापना-II--संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा श्री सी. एम. पाण्डेय, उपायुक्त (एनआरएम/आरएफएस) को पे बैंड-4, 8,700/- रु. ग्रेड के साथ, 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान पर (14,300-400-18,300/- रु. का पूर्व संशोधित वेतनमान) कृषि एवं सहकारिता विभाग में अपर आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के पद पर 01 मई, 2012 के पूर्वाह्न से प्रोन्नति आधार पर नियुक्त किया जाता है।

के. संजयन, अवर सचिव

सं. 32011/5/2012-स्थापना-II--संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा श्री बी. रथ, उपायुक्त (एनआरएम/आरएफएस) को पे बैंड-4, 8,700/- रु. ग्रेड के साथ, 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान पर (14,300-400-18,300/- रु. का पूर्व संशोधित वेतनमान) कृषि एवं सहकारिता विभाग में अपर आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के पद पर 01 मई, 2012 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 17 मई 2012

सं. 32011/05/2010-स्थापना-II--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा डॉ. एम. तामिल सैलवान, निदेशक, सुपारी एवं मसाले विकास निदेशालय, कालीकट को पूर्वाह्न 16 मई, 2012 से पदोन्नति आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में, 8,700/- रु. ग्रेड वेतन के साथ, 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान में वेतन बैंड-4 (14,300-400-18,300/- रु. के पूर्व संशोधित वेतनमान) में अपर आयुक्त (बागवनी-फल) के पद हेतु नियुक्त किया जाता है।

के. संजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2012

सं. ए-19012/7/2012-ईए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के ग्रेड-IV (कनिष्ठ समयमान) में प्रोन्नत होने पर

श्री के. सी. भारती, आर्थिक अधिकारी को कृषि एवं सहकारिता विभाग में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) + 5,400/- रुपये ग्रेड पे में, 31 मई, 2012 के अपराह्न से अनुसंधान अधिकारी (सहायक निदेशक) के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2012

सं. 12-1/2011-एमएण्डटी(प्रशा.)--राष्ट्रपति, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में वरिष्ठ कृषि अभियंता (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय) के रूप में कार्यरत श्री एच. एल. यादव तथा श्री महेश चन्द्र को क्रमशः 15.03.2012 (पूर्वाह्न) तथा 03.04.2012 (पूर्वाह्न) से नियमित पदोन्नति आधार पर पे बैंड-3 में ग्रेड पे रुपये 6,600/- के साथ वेतनमान रुपये 15,600--39,100/- में नियुक्त करती हैं।

बी. बी. भगत, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 जून 2012

सं. ए-19011/12/2012-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री गोकुल चन्द्र पति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उड़ीसा : 78) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2012 के आदेश संख्या 9/26/2012-ईओ (एस.एम.1) के द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में उनकी तैनाती होने पर 01.07.2012 के पूर्वाह्न से 80,000/- रुपए (नियत) के शीर्ष वेतनमान में सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

दिनांक 28 जून 2012

सं. ए-15012/09/2012-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर इस विभाग में सचिव श्री रुद्र गंगाधरन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 1975) 30 जून, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 जनवरी 2010

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2008 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" की नियुक्ति।

सं. 7-03/2007-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2008 के आधार पर श्री मारूत

त्रिपाठी (रैंक नं. 560) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

- (i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्वधीन होगी।
- (iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी की यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।
- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्वधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और शैक्षणिक अर्हता इत्यादि के कतिपय दस्तावेजों के विभाग द्वारा सत्यापन के अध्वधीन होगी।

3.(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी

नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्याधीन होगी।

3.(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. यह आवंटन अनंतिम है और रिट याचिका संख्या 1814-1815/2008 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका सं. 13571-13572/2008 के परिणाम के अध्याधीन है।

5. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।

अमिताभ रंजन सिन्हा, निदेशक (एसईए)

सेवा में,

श्री मारुत त्रिपाठी,
एम-5-1/28, सैक्टर-ए,
सीतापुर रोड स्कीम,
अलीगंज, लखनऊ-226021

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2008 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” की नियुक्ति।

सं. 7-03/2007-एसईए-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2008 के आधार पर सुश्री अरुलमती एस. (रैंक नं. 638) (ओबीसी) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।

- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्याधीन होगी।

- (iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी की यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्याधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशालित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और शैक्षणिक अर्हता इत्यादि के कतिपय दस्तावेजों के विभाग द्वारा सत्यापन के अध्याधीन होगी।

3.(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्याधीन होगी।

3.(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. यह आवंटन अनंतिम है और रिट याचिका संख्या 1814-1815/2008 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका सं. 13571-13572/2008 के परिणाम के अध्याधीन है।

5. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव

स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।

सेवा में,

सुश्री अरुलमति एस.,
सं. 202-एफ, पलानी अंदावर नगर,
शिवगिरी पट्टी, पलानी टीके,
डिंडीगुल, डीटी तमिलनाडु-624601

अमिताभ रंजन सिन्हा, निदेशक (एसईए)

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2008 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” की नियुक्ति।

सं. 7-03/2007-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2008 के आधार पर श्री पोषन लाल चन्द्राकर (रैंक नं. 656) (ओबीसी) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्वधीन होगी।
- (iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी की यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।
- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना

प्रस्तुत करने के अध्वधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और शैक्षणिक अर्हता इत्यादि के कतिपय दस्तावेजों के विभाग द्वारा सत्यापन के अध्वधीन होगी।

3.(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्वधीन होगी।

3.(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. यह आबंटन अनंतिम है और रिट याचिका संख्या 1814-1815/2008 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका सं. 13571-13572/2008 के परिणाम के अध्वधीन है।

5. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।

अमिताभ रंजन सिन्हा, निदेशक (एसईए)

सेवा में,

श्री पोषन लाल चन्द्राकर,
ग्राम-मोहड, डाकखाना-मोहरा,
जिला-राजनंदगांव
छत्तीसगढ़-491441

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2008 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” की नियुक्ति।

सं. 7-03/2007-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2008 के आधार पर मो. शाहिद आलम (रैंक नं. 540) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लिये गए हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अधीन होगी।
- (iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी की यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।
- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर

दिए जाने और शैक्षणिक अर्हता इत्यादि के कतिपय दस्तावेजों के विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन होगी।

3.(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अधीन होगी।

3.(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. यह आबंटन अनंतिम है और रिट याचिका संख्या 1814-1815/2008 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका सं. 13571-13572/2008 के परिणाम के अधीन है।

5. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।

अमिताभ रंजन सिन्हा, निदेशक (एसईए)

सेवा में,

मो. शाहिद आलम,
ई-82/83, तीसरी मंजिल,
गांधी विहार, मुखर्जी नगर,
नई दिल्ली-110009

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2008 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” की नियुक्ति।

सं. 7-03/2007-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2008 के आधार पर श्री प्रदीप कुमार शुक्ला (रैंक नं. 427) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) यह पद स्थायी है किन्तु वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और

परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।

- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्वधीन होगी।
- (iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी की यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।
- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्वधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और शैक्षणिक अर्हता इत्यादि के कतिपय दस्तावेजों के विभाग द्वारा सत्यापन के अध्वधीन होगी।

3.(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्वधीन होगी।

3.(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. यह आबंटन अनंतिम है और रिट याचिका संख्या 1814-1815/2008 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका सं. 13571-13572/2008 के परिणाम के अध्वधीन है।

5. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।

अमिताभ रंजन सिन्हा, निदेशक (एसईए)

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार शुक्ला,
1-एन/5-सी तिलक नगर,
अल्लाहपुर, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश-211006

इलेक्ट्रानिकी व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जून 2012

सं. पीएफ/559/एनआईसी/2012-प्रशा.-I--श्री ए. वी. राजगोपाल, उपनिदेशक, कर्मचारी कोड सं. 559, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 30 जून, 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

सं. पीएफ/563/एनआईसी/2012-प्रशा.-I--श्री ब्रह्म प्रकाश सैनी, उपनिदेशक, कर्मचारी कोड सं. 563, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 30 जून, 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2012

सं. ईआरबी-I/2011/2/68--श्री ओम प्रकाश, एसजी/आईआरटीएस, निदेशक, टीटी (समन्वय), रेलवे बोर्ड की वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में

पदोन्नति होने पर उन्हें दिनांक 08.06.2012 के पूर्वाह्न से कार्यपालक निदेशक, टीटी (समन्वय), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2010/2/27--श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, एसजी/आईआरटीएस, निदेशक, यातायात (समयपालन), रेलवे बोर्ड की वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति होने पर उन्हें दिनांक 08.06.2012 के अपराह्न से कार्यपालक निदेशक, (एलआरडीएसएस), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 20 जून 2012

सं. ईआरबी-I/2011/2/13--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के निम्नलिखित सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/- के पे बैंड-2 में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है :-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री भगत सिंह	25.05.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद-I	25.05.2012 (पूर्वाह्न)
3.	श्री भगत सिंह	26.04.2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री धर्म वीर सिंह	28.05.2012 (पूर्वाह्न)

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 22 जून 2012

सं. ईआरबी-I/2011/2/32--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के निम्नलिखित निदेशक ग्रेड के अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 10,000/- के पे बैंड-4) में पदोन्नत किया गया है :-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
1.	श्री आर. के. मीणा	17.05.2012 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री बी. वैदेही	18.05.2012 (पूर्वाह्न)

1	2	3
3.	श्री मनीष कुमार	29.05.2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री एन. सोमन	17.05.2012 (पूर्वाह्न)
5.	श्री पी. राजशेखरन	17.05.2012 (पूर्वाह्न)

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2012

सं. 9/2012 (फा.सं. 25/1(7)/2012-स्थापना-एक)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2010, के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री मयंक सिंह चेतन को दिनांक 06.02.2012 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप-क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री मयंक सिंह चेतन कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सं. 8/2012 (फा.सं. 25/1(14)/2012-स्थापना-एक)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2010, के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री सतीश जैन को दिनांक 09.03.2012 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप-क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री सतीश जैन कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2012

सं. ए-32014/01/2008-प्रशा.-I(पार्ट)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/5/2011-सीएस-1-(एस) के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी (समूह-ख/राजपत्रित) (पे बैंड-2: 9,300--34,800/-, ग्रेड पे 4,800/- रुपये) के रूप में

नियुक्ति को दिनांक 31.12.2012 तक की अवधि अथवा उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	प्रवर सूची वर्ष	अवधि जिस तक अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति विस्तारित की गयी है।
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री			
1.	पी. बी. सूर्यराव	1989	31.12.2012
2.	बी. डी. शर्मा	1992	31.12.2012
3.	एस. पी. गोयल	1992	31.08.2012
4.	एन. के. जोशी	1993	31.12.2012
5.	नरेश कुमार	1994	31.12.2012
6.	ओम प्रकाश (अ.जा.)	1994	31.12.2012
7.	रीट सिंह	1994	31.12.2012
8.	शीश राम (अ.जा.)	1994	31.12.2012
9.	विजय कुमार	1995	31.12.2012
10.	सरोज बाला भाटिया	1995	31.12.2012
11.	बी. सी. त्रिपाठी	1995	31.12.2012
12.	योगेन्द्र विट्ठल रणदीव (अ.ज.जा.)	1995	31.12.2012
13.	बी. टी. चिचुलकर (अ.ज.जा.)	1998	31.12.2012
14.	चन्द्रकांत मेवाड़	2000	31.12.2012

2. ऊपर उल्लिखित सहायकों की तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

- (क) तदर्थ पदोन्नति के अवधि, 31.12.2012 तक अथवा उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध करवाए जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।
- (ख) तदर्थ नियुक्ति, नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने का अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की प्रवर सूची में शामिल किए जाने का अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का हक प्रदान नहीं करेगी।
- (ग) तदर्थ नियुक्ति अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध कराए जाने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्ति किए गए व्यक्ति के इन दो श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं हो पाने की स्थिति में उन्हें, ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध हो जाने पर जिस तारीख से वे (नियमित अधिकारी) अपनी ड्यूटी ग्रहण करते हैं, उस तारीख से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आबंटित संबंधित संवर्ग यूनियनों में सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

ए. के. ठाकुर, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 11th June 2012

No. RS/46/2012/55-Perl.—The services of Shri R. D. Indora, Accounts Officer in the Rajya Sabha Television stand terminated w.e.f the afternoon of 8th June, 2012.

RASHMI GUPTA, Asstt. Dir.

New Delhi-110001, the 25th June 2012

No. RS/42/2/2012/56-Perl.—Consequent upon his being relieved from the post of Recovery Officer-I in the Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Chandigarh, Shri B. M. S. Rana, Assistant Director has resumed duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 25th June, 2012.

M. SASILEKHA NAIR, Jt. Dir.

Shri/Smt./Kum.

10. Prashanthan A.
11. K. Radhakrishnan
12. T. Elanchezhiyan
13. Saji V. J.
14. T. Saboo
15. Dr. Radhakrishnan T. V.
16. S. Kumar
17. Mathai M. S.
18. Paritosh Jain
19. Rajeev U. P.
20. Govind

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 19th June 2012

No. A-19012/02/2012-Ad-I—The President is pleased to appoint Shri Alok Vardhan Chaturvedi, IAS (BH : 86) as Joint Secretary in Cabinet Secretariat on Central Deputation in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of 5 years with effect from the forenoon of 19th June, 2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 21.10.2011 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
Shri/Smt./Kum.			
1.	K. Sivan	Scientist/Engineer-H	Outstanding Scientist
2.	Saratchandran S.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
3.	Dr. Bhanu Pant	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
4.	Dr. Ramesh Kumar R.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
5.	Hemachandran S.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
6.	Padmakumar E. S.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
7.	Sheela D. S.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
8.	Vinod P.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
9.	Kunhikrishnan P.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
10.	Sam K. Zachariah	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
11.	Shibu Gopinath	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
12.	P. Ram Kumar	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
13.	V. Ashok	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 21st May 2012

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SF as Scientists/Engineers-SG in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. R. Gopalakrishnan Nair
2. K. R. Mohan Ananthanarayanan
3. Mariamma Mathew
4. B. Presenna Kumar
5. Thomas Varughese
6. S. Akbar Ali
7. Dr. A. K. Anilkumar
8. S. Subramanian
9. Pankaj Priyadarshi

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-G as Scientists/Engineers-H in the Vikram Sarabhai Space

Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. S. Somanath
2. Dr. T. Jayachandran

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SE as Scientists/Engineers-SF in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. S. Sujatha
2. Rema K. P.
3. S. Palani
4. Karthikeyan B.
5. Dr. R. Kalimuthu
6. Josna Susan Joy
7. Jancy Rose K.
8. R. Harikrishnan Hanamantray Baluragi
9. Hanamantray Baluragi
10. R. Suresh
11. R. S. Pugazenthi
12. T. Ramesh Chandran
13. Dr. A. Venugopal
14. Dr. Biju S.
15. Balachandran K. P.
16. Gopakumar R.
17. A. Geetha Dinesh
18. Devi T. J.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD

as Scientists/Engineers-SE in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. Dr. Damu Bala Subrahmanyam
2. Joji Daniel
3. Shinoy K. S.
4. Ramaswamy K.
5. Joby A. K.
6. Samuel M. G.
7. Roy Thankachan
8. S. Kavitha
9. Amitava Mandal
10. Tushar R. Phadnis
11. T. Sundaramurthy
12. G. Antony Neethi Manickam
13. Anoop P.
14. M. S. Gopal
15. K. Karthikeyan
16. Nishank Kumar
17. G. Senthil Kumar
18. Sudipta Pramanik
19. V. Santhana Gopal
20. Mendu Tandava Krishna
21. E. Rajan
22. Jose Paul
23. Praveen Kumar
24. Karthikeyan P.
25. G. Jayakumar
26. M. K. Prathapan
27. Ravi C. N.
28. Indu Gopan
29. S. Kartheekeyan

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Senior Technical Assistant-A as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. Anil Kumaran Nair S.
2. K. Mohanan
3. Ratheesh V. N.
4. M. Mohommed Shamnad
5. K. A. Varkey
6. G. Sunilkumar
7. Renjith S.
8. Rajeev P.
9. Hafiz K. R.
10. Rajendran N.
11. Nandikesan P.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. Abhay Kumar Singh
2. Jaseentha K. D.
3. Abhishek Kumar
4. V. Praveena Krishnan
5. Priyanka Shukla
6. N. Benson
7. Ajith Jose
8. Suvashish Tiwari
9. Vijayan S.
10. K. G. Rajkumar
11. Jakson Sebastian
12. Dr. Mosarraf Hossain Md.

Shri/Smt./Kum.

13. Deepak Patidar
14. Manoj Singh Kathyat
15. R. Kalaivani
16. Aravind Jithin A. J.
17. Nikhil Kumar Mawari
18. Ajay Kumar
19. Shivam Shukla
20. Able C. Kurian
21. Kalyanaraman R.
22. Nand Kishore
23. Kailash Kumar Jha
24. Arun George
25. Abhilash M.
26. Narendra Kumar Singh
27. Satish Chandra Mishra
28. Dunga Yogeswara Rao
29. John Paul M. A.
30. Anoop P. P.
31. P. Venkata Mutyala Naidu
32. Johns Paul
33. Sanjay Tapse
34. Vinay Unnikrishnan
35. Satender Kumar
36. Abhishek Kumar
37. Amitabh Kumar Amit
38. R. P. Jayakumar
39. P. Panneer Selvam
40. Navya P. K.
41. Ashokan K.
42. Swati Swaroop
43. Anish Gopinath
44. Divya U. S.
45. Karthik R.
46. S. Sreejith
47. Ratheesh K.

Shri/Smt./Kum.

48. Vasudha N.
49. Robin V. T.
50. Sijo George
51. Manoj Kumar Singh
52. Nitin Singh Raghuvanshi
53. Simruti Ranjan Panigrahi
54. Unnikrishnan C. L.
55. Nirmal Ramachandran
56. Tarun Singh Baghel
57. Swapna Raj P. R.
58. Tina Thomas
59. Navin Kumar Kessop

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion Smt. Benazeer C. P. Scientist/Engineer-SD as Scientist/Engineer-SE in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 04.07.2011 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Senior Scientific Assistant-A as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. Neethu T. K.
2. Dhanya Chandran S.
3. Minimole M. R.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion Sh. T. R. Induraj, Senior Technician-B as Technical Officer-C in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1 (1) 2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Sambamurthy Enugula	20.07.2011
2.	Joel Raj S	16.06.2011
3.	Phani Charan Nidamarthi	01.08.2011
4.	Goverdhanareddy Chintala	01.08.2011
5.	Kapil Kumar Sharma	01.08.2011
6.	R. Sumathy	01.08.2011
7.	Renju Gangadharan	01.08.2011
8.	Veeramani K	08.08.2011
9.	Jayaprakash R	08.08.2011
10.	Ganesh J	08.08.2011
11.	Kuldeep Sharma	11.08.2011
12.	Gadhawe Amol Nanasaheb	11.08.2011
13.	Amit Kumar	11.08.2011
14.	Pulkit Goyal	11.08.2011
15.	Nishant Singh	11.08.2011
16.	Jyothish Ravindran Pillai	11.08.2011
17.	Alex John	11.08.2011
18.	Vijith Mukundan	11.08.2011
19.	Ankit Mittal	11.08.2011
20.	John Vivian Prashant A	11.08.2011
21.	Dersana Sasidharan	11.08.2011
22.	M. Pavan Kumar	11.08.2011
23.	Amritha Prasad	11.08.2011
24.	S. Shriram	18.08.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1 (1) 2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Medical Officer-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the

Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Dr. Devi M. R.	25.07.2011
2.	Dr. Meera Kartha K.	25.08.2011
3.	Dr. Nitin Abraham	29.08.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1 (1) 2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SD in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Dr. Vineeth C	10.06.2011
2.	Dr. Uma K. N	10.06.2011
3.	Dr. Nizy Mathew	07.07.2011
4.	Dr. Vijayakumar S Nair	15.07.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1 (1) 2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Kesavabrahmajji Karuturi	01.08.2011
2.	Sangeetha G. R	01.08.2011
3.	Sanoop M. K	01.08.2011
4.	Patel Nirav Pravinchandra	10.08.2011
5.	Sreehari M	08.08.2011
6.	Jagannathan K	16.08.2011
7.	B Praveen Kumar	11.08.2011
8.	Rahul Kapoor	11.08.2011
9.	Prakhar Agarwal	11.08.2011
10.	Manjil Ray	21.09.2011

1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
11.	Abhijeet Rathore	21.09.2011
12.	Harbir Singh	21.09.2011
13.	Sanchit	03.10.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1 (1) 2012-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri Bijukumar R. Sr. Technical Assistant-A as Scientist/Engineer-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 18.07.2011 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1 (1) 2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Post to which Promoted	Date of Promotion
1.	C. S. Basavanna	Senior Purchase & Stores Officer	30.05.2011
2.	K. Munikrishnaiah	Head, Purchase & Stores	06.06.2011
3.	CH Sreenivasulu	Senior Purchase & Stores Officer	12.10.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1 (2) 2012-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the Following Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
	Sh./Smt./Kum.		
1.	Sreedharan C	Scientist/Engineer-SE	31.07.2011
2.	Hariharan C. K.	Sr. Accounts Officer	31.08.2011
3.	Sethuram K.	Scientist/Engineer-SD	30.09.2011
4.	K. N. Narayana Kartha	Scientist/Engineer-SE	31.10.2011
5.	V. Ravindran	Head, PGA	31.10.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1 (2) 2012-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the Following Scientists/Engineers and

Officers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
Shri/Smt./Kum.			
1.	S. Satyanarayana	Scientist/Engineer-H	31.03.2011
2.	C. D. Lailambika Amma	Scientist/Engineer-SF	31.03.2011
3.	S. J. Prasannakumari	Scientist/Engineer-SF	31.03.2011
4.	Srinivasaraghavan T	Scientist/Engineer-SF	31.03.2011
5.	Gopalan P. R	Scientist/Engineer-SE	31.03.2011
6.	A. Sathyadas	Scientist/Engineer-SE	31.03.2011
7.	T. K. Krishnan	Scientist/Engineer-G	30.04.2011
8.	Dr. S. Rajendran	Scientist/Engineer-SG	30.04.2011
9.	G. P. Sasidharan Nair	Scientist/Engineer-SE	30.04.2011
10.	A. B. Vidyadharan	Scientist/Engineer-SC	30.04.2011
11.	N. Narayana Moorthy	Distinguished Scientist	31.05.2011
12.	K. N. Balasubramanian	Scientist/Engineer-G	31.05.2011
13.	Dr. George Joseph	Scientist/Engineer-G	31.05.2011
14.	Dr. Mannil Mohan	Scientist/Engineer-G	31.05.2011
15.	G. Prabhakaran	Scientist/Engineer-SG	31.05.2011
16.	P. Ramakrishnan	Scientist/Engineer-SF	31.05.2011
17.	S. Muthu	Scientist/Engineer-SF	31.05.2011
18.	Sasidharan Nair L	Scientist/Engineer-SE	31.05.2011
19.	S. Vijayakumaran Nair	Scientist/Engineer-SE	31.05.2011
20.	Retnakaran Achari P	Scientist/Engineer-SD	31.05.2011
21.	Sasidhran M N	Scientist/Engineer-SD	31.05.2011
22.	D. Sukumaran Nair	Scientist/Engineer-SC	31.05.2011
23.	K. R. Chandrasekaran Nair	Head PSD	31.05.2011
24.	K. G. Unnikrishnan Nayar	Senior Administrative Officer	31.05.2011
25.	Dr. Ram Krishan Sharma	Scientist/Engineer-G	30.06.2011
26.	Y. K. Dikshit	Scientist/Engineer-SF	30.06.2011
27.	S. Sankara Iyer	Scientist/Engineer-G	31.08.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1 (2) 2012-I—The President is pleased to accept the resignation from Service of the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Resignation
1	2	3	4
Shri/Smt./Kum.			
1.	Ganesh Chalavadi	Scientist/Engineer-SC	17.01.2011
2.	Swetaleena Mishra	scientist/Engineer-SC	19.04.2011

1	2	3	4
Shri/Smt./Kum.			
3.	P. Nandhini	Scientist/Engineer-SC	12.05.2011
4.	Venketeshwar Kumar	Scientist/Engineer-SC	12.05.2011
5.	Arvind Kumar	Scientist/Engineer-SC	25.05.2011
6.	Ankur Chattopadhyay	Scientist/Engineer-SC	04.07.2011
7.	Shreejith Shanker	Scientist/Engineer-SC	12.07.2011
8.	Saurabh Harsh	Scientist/Engineer-SC	14.07.2011
9.	Prakash Harikumar	Scientist/Engineer-SD	15.07.2011
10.	Niranjan Kumar	Scientist/Engineer-SC	22.07.2011
11.	Roshin J Thomas	Scientist/Engineer-SC	01.08.2011
12.	V. Prem Kumar	Scientist/Engineer-SC	26.08.2011
13.	Sudhapriya D	Scientist/Engineer-SD	28.09.2011
14.	Atul Baghel	Scientist/Engineer-SC	13.06.2011
15.	Dikshant Malhotra	Scientist/Engineer-SC	25.11.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1 (2) 2012-I—Consequent on acceptance of Voluntary Retirement, Shri Jossy Ray H, Scientist/Engineer-SE in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 19.08.2011.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1 (1) 2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Post to which promoted	Date of promotion
Shri/Smt./Kum.			
1.	Rashmita Mohanty	Scientist/Engineer-SD	01.01.2012
2.	S. Mahalakshmi	Scientist/Engineer-SD	01.01.2012
3.	Soumik Sarkhel	Scientist/Engineer-SE	01.01.2012
4.	J. Girish Kumar	Scientist/Engineer-SE	01.01.2012
5.	Aisha Sidhick S. M	Scientist/Engineer-SE	02.01.2012
6.	Samba Murthy V. R	Scientist/Engineer-SG	01.01.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1 (2) 2012-I—The President is pleased to terminate from Service Shri Shashi Kant, Scientist/Engineer-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore of the

Department of Space with effect from the forenoon of 30.09.2011.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 9/1 (1) 2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the post mentioned against each in the INSAT-Master Control Facility, Hassan of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2012 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which Promoted
	Sh./Smt./Kum.	
1.	D. Ravindranath	Scientist/Engineer-H
2.	G. S. Raju	Scientist/Engineer-SG
3.	F. Moinuddin Sheriff	Scientist/Engineer-SF
4.	P. Muralidhara	Scientist/Engineer-SF
5.	Somasundra, G	Scientist/Engineer-SE
6.	S. Suresh Babu	Scientist/Engineer-SE
7.	R. Subramani	Scientist/Engineer-SE
8.	S. N. Jagannatha	Scientist/Engineer-SD
9.	Gireesh M	Scientist/Engineer-SD
10.	H. M. Mohana	Scientist/Engineer-SD
11.	Ravi S. J	Scientist/Engineer-SD
12.	Avinash M	Scientist/Engineer-SD
13.	Revankumar Aralimatti	Scientist/Engineer-SD
14.	R. Uma Mahesh	Scientist/Engineer-SC

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 9/1 (1) 2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC in the INSAT-Master Control Facility, Hassan of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
	Sh./Smt./Kum.	
1.	M. R. Rajesh Kannan	08.08.2011
2.	S. P. Shailender Kumar	11.08.2011
3.	Dheerendra Kumar Jeevani	11.08.2011
4.	Jambunath Kavalur	23.12.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

The 29th May 2012

No. 2/1 (1) 2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to

the posts mentioned against each in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space in an officiating with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Post to which Promoted	Date of Promotion
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Dr. S. Venkataraman	Scientist/Engineer-G	01.01.2012
2.	Dr. K. Pramod Kumar	Scientist/Engineer-SG	01.01.2012
3.	Neeraj Mishra	Scientist/Engineer-SF	01.01.2012
4.	Susmitha Mukka	Scientist/Engineer-SD	01.01.2012
5.	Rajesh Reddy Datla	Scientist/Engineer-SD	01.01.2012
6.	V. Ramakrishna Reddy	Scientist/Engineer-SC	01.01.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 2/1 (2) 2012-I—The President is pleased to accept the resignation from Service of Shri Rajneesh Varshney, Scientist/Engineer-SC in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space with effect from the afternoon of 30.12.2011.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 2/1 (2) 2012-I—Consequent on attaining the age of superannuation Dr. R. Krishnan, Outstanding Scientist in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 31.12.2011.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2012 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Shivanna G	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
2.	S. C. Rastogi	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
3.	D. B. Choudhuri	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
4.	Sasta Prasad R.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
5.	A. Krishnan	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG

1	2	3	4
Shri/Smt./Kum.			
6.	Iftiqar Hussain	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
7.	A. Suresh	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
8.	B. V. Prasad	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
9.	K. V. Govinda	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
10.	N. Viswanatha	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
11.	N. Viswanatha	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
12.	M. R. Thyagaraj	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
13.	Prashanta Chakraborty	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
14.	Chitra Ramamurthy	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
15.	H. R. Nagendra	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
16.	S. G. Barve	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
17.	T. P. Murali	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
18.	Manohar N. Sonnada	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
19.	Vijayakumar Pujari	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
20.	O. V. Raghava Reddy	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
21.	M. Kumar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
22.	K. V. Ravikumar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
23.	Prasanta Kumar Poddar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
24.	K. P. Raja Sekhar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
25.	Ganesh Kumar K	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
26.	S. Kesavan	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
27.	Dr. P. K. Maharana	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
28.	V. Venkatesh	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
29.	L. Seetharam	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
30.	Dr. Anand Kumar Sharma	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
31.	Dr. S. Venkateswara Sharma	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
32.	Gaikwad K. Laxman	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
33.	Louis A	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
34.	Dr. V. K. Hariharan	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
35.	C. A. Kumar	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
36.	S. Radhakrishnan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
37.	Parimal Kumar	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
38.	M. Sankaran	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
39.	Shrinivas V. Huilgol	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG

1	2	3	4
Shri/Smt./Kum.			
40.	B. A. Myluvahana Bhoopathy	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
41.	Sreekantha C.V.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
42.	H. R. Narayana-murthy	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
43.	B. Bandyopadhyaya	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
44.	Muthumani Rajan	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
45.	Pradeep K. Peter	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
46.	K. N. Syamala Devi	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
47.	H. Ramamurthy	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
48.	S. Elumalai	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
49.	Lalitha S	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
50.	V. C. Sujatha	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
51.	R. Prasad Babu	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
52.	Ravi Kulkarni	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
53.	Shivaprakash B.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
54.	Md. Tosicul Wara	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 21.10.2011 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
Sh./Smt./Kum.			
1.	D. L. Shirolkar	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
2.	Dr. C. L. Nagendra	Scientist/Engineer-H	Outstanding Scientist
3.	Vijayarama Raju Sagi	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
4.	Pradeep Kumar Gupta	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity

with effect from the forenoon of 01.01.2012 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
1	2	3	4
	Sh./Smt./Kum.		
1.	Meenu Kunal Arora	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
2.	Pragya Srivastava	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
3.	Kaushalendra Kumar Kaushal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
4.	Subhajit Sarkar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
5.	Suma D. R.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
6.	Raghunandana K. K.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
7.	S. Suresh Karnik	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
8.	Leena Ramdas Shet	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
9.	Ch. Phanendra Rao	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
10.	Suja P. V.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
11.	Shuvo Dutta	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
12.	Abhishek Singh Yadav	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
13.	Shailendra Kumar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
14.	Puja Singh	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
15.	S. Vaishali	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
16.	C. R. Rangarajan	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
17.	Dr. Manju Sudhakar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
18.	M. V. Peereswara Rao	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
19.	Kumar. S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
20.	B. S. Prasad	Senior Scientific Assistant-A	Scientist/Engineer-SC
21.	P. Satheesh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
22.	Gowrishankara C. K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
23.	Randhir Rai	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
24.	Subhash Yadav	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
25.	M. Srikanth	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
26.	Saumyaketu Mishra	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
27.	Evangelin Leeja Justin	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
28.	Rahul Mishra	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
29.	Chandrakanta Kumar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

1	2	3	4
	Sh./Smt./Kum.		
30.	R. Vanitha Devi	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
31.	Manoj Kumar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
32.	Gayatri Malhotra	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
33.	Sangeetha. K	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
34.	Ch. Srinivasa Satyaprasad	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
35.	B. Prabakaran	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
36.	Chayan Dutta	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
37.	Jagadevi Patil	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
38.	G. N. V. Prasad	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
39.	Shivanand M. Kamat	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
40.	G. Ravi Chandra Babu	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
41.	Jaikumar. V	Senior Technical Assistance-A	Scientist/Engineer-SC
42.	B. Karthikeyan	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
43.	S. Ananda	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
44.	M. Narasimha Murthy Patnaik	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
45.	Ramesh Gupta K. V.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
46.	S. Kalpana	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
47.	Jagannath Das	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
48.	Vanitha. E	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
49.	Ponakala Raghu Babu	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
	Sh./Smt./Kum.	
1.	Mathavaraj S.	30.11.2011
2.	Abhishek Kumar Singh	12.01.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion Smt. Smrati Verma, Scientist/Engineer-SC as Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore

of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 30.09.2011 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2012-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers and Officers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
Sh./Smt./Kum.			
1.	Vaman Shankar C	Scientist/Engineer-SG	31.12.2011
2.	K. P. Gopalakrishnan	Scientist/Engineer-SF	31.12.2011
3.	Ramesh T. B.	Scientist/Engineer-SF	31.12.2011
4.	S. Sreerama Moorthy	Scientist/Engineer-SF	31.01.2012
5.	S. C. Rastogi	Scientist/Engineer-H	31.12.2012
6.	H. R. Chandrashekar	Head, Accounts & IFA	31.12.2012
7.	Dr. S. Venugopalan	Scientist/Engineer-G	31.12.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2012-I—Consequent on acceptance of Voluntary Retirement the following Scientists/Engineers-SF in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Relief
Sh./Smt./Kum.		
1.	R. L. Gayathri	04.01.2012
2.	Sudhira K. S.	06.02.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2012-I—The President is pleased to accept the resignation from Service of Shri Satish Kumar Singh, Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 07.02.2012.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 8/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bangalore of the Department of Space on temporary

capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
Shri/Smt./Kum.		
1.	Rajat Awasthi	05.12.2011
2.	G. Parameswaran	19.01.2012
3.	Smitha Krishnan	29.02.2012
4.	Pritish Ranjan Pradhan	16.03.2012
5.	Anupam Bhardwaj	16.03.2012
6.	Aakanksha Avnish Bhardwajan	16.03.2012
7.	Prabhakar Sharan	16.03.2012
8.	Amit Kumar	16.03.2012
9.	Sachin Narang	16.03.2012
10.	J. Afreen	16.03.2012
11.	Nabhanil Bhattacharjee	16.03.2012
12.	Rajesh Kumar	16.03.2012
13.	Abhay Bajpai	16.03.2012
14.	Balkrishna Tulsyan	16.03.2012
15.	Ramya V	16.03.2012
16.	Yogesh Lingwal	16.03.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 11/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri Rathin Sengupta as under Secretary in the ISRO Office/DOS, Branch Secretariat, New Delhi of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 21.11.2011 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

The 31st May 2012

No. 8/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2012 and until further orders:—

Sl. No.	Name	Post to which Promoted
1	2	3
Sh./Smt./Kum.		
1.	Kamlendra Krishna Tripathi	Scientist/Engineer-SD
2.	N.K. Choudhary	Scientist/Engineer-SE
3.	Manikantan Ramadas	Scientist/Engineer-SE

1	2	3
	Sh./Smt./Kum.	
4.	Umang M Parikh	Scientist/Engineer-SF
5.	Meera A.	Scientist/Engineer-SF
6.	S. Keshava Reddy	Scientist/Engineer-SF
7.	Bulbul Mukherjee	Scientist/Engineer-SF
8.	G Ramalingam	Scientist/Engineer-SG
9.	H.N. Nagaraj	Scientist/Engineer-SG
10.	Josekutty Job	Scientist/Engineer-SG
11.	V. Siddiramulu	Scientist/Engineer-G

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 8/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri M. Hemanth Kumar as Scientist/Engineer-SE in the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 02.01.2012 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 29th May 2012

No. 12014/2/2009-ISS—The President is pleased to appoint the following probationers of the Indian Statistical Service (direct recruits of the examination held in 2008) substantively to Junior Time Scale of the Service w.e.f. 19.4.2012 :—

Sl. No.	Name
1.	Ms. Ambica Anand
2.	Ms. Neha Kalra
3.	Mr. Vivek Srivastava
4.	Mr. Sri Susmit
5.	Mr. Siva Naga Malleswararao
6.	Mr. Purushottam Verma
7.	Mr. Sarbeswar Majhi
8.	Mr. Jadeja Lakhadhsinh M. (PHC)

T.S. JAWAHAR, Director

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 25th June 2012

No. A-32013/05/2010-Admn.IV(LA)—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 29th May, 2012, the President is pleased

to extend the term of ad-hoc appointment of the following regular Section Officers of the Central Secretariat Service to the post of Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs upto 31st May, 2013 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier:—

- (i) Shri D. Choudhury (CSL No. 4707)
- (ii) Ms. Asha Sota (CSL No. 6348)
- (iii) Shri Kuldeep Kumar (CSL No. 7140)

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th February 2012

No. 44/17/2011-DM-II—The President is pleased to appoint Smt. Archana Goyal Gulati, Indian P&T A&FS (1989) as Financial Advisor, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the National Disaster Management Authority (NDMA) under Ministry of Home Affairs on deputation basis with effect from 01.02.2012 (F.N.) for a period or the three years of until further orders, whichever is earlier.

ASHISH KUMAR PANDA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 18th June 2012

No. I-18011/08/2012/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service born on the cadre of Haryana with effect from dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
1.	Smt. Naazneen Bhasin, IPS (HY : 2007)	18.08.2011
2.	Shri Abhishek Garg, IPS (HY : 2008)	22.12.2010
3.	Shri Hamid Akhtar, IPS (HY : 2008)	22.12.2010

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

The 26th June 2012

No. I-11014/07/2011/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Sub Rule-(2) of 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Odisha and Rajasthan, the Central Government hereby transfers Shri Satyendra Kumar, IPS (OD : 2007) from Odisha to the IPS Cadre of Rajasthan on the ground of his marriage with Ms. Tina Soni, IAS (RJ:2007).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND
PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 7th May 2012

No. 20/G/1243-Ad-I—On attaining the age of superannuation, Shri C.A. Subramanian, CSS, Joint Secretary in the Department of Personnel & Training has retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st March, 2012.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

New Delhi, the 15th June 2012

No. 14013/03/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service born on the West Bengal Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date (s) shown against them:—

Sl. No.	Name	Batch	Due date of Confirmation
S/Shri/Smt./Ms.			
1.	Rampada Biswas	1996	22.12.2007
2.	Kalipada Das	1997	24.10.2008
3.	Indranil Sengupta	1997	24.10.2008
4.	Nilanjan Chatterjee	1998	17.06.2010
5.	Sukumar Ganai	1998	17.06.2010
6.	Subrata Dutta	1998	17.06.2010
7.	Smt. Doma Tshering Sherpa	1998	06.07.2010
8.	Biswajit Gangopadhyay	1998	12.06.2010
9.	Nandadulal Bhakat	1999	05.04.2011
10.	Malabika Jha	1999	05.04.2011
11.	Subhasis Moitra	1999	05.04.2011
12.	Arup Kumar Saha	1999	05.04.2011
13.	Ananda Mohan Chakraborty	1999	08.04.2011

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 26th June 2012

No. 39019/05/2012-Estt.(B)—The President is pleased to appoint Prof. David R. Syiemlieh, former Vice-Chancellor, Rajiv Gandhi University, Doimukh, Arunachal Pradesh as Member, Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 25th June, 2012.

U.S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 31st May 2012

No. 10 of 2012 (F. No A-12025/6/2010-Ad.VI)—The President is pleased to appoint the following IRS(IT) Officers in the grade of Assistant Commissioners of Income Tax (Junior Scale) in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (plus the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the PB-3) in a substantive capacity in that grade with effect from the date (s) indicated against each:—

2006 Batch (CSE 2005)

Sl. No.	Name	Date of Birth	Date of Confirmation
1	2	3	4
S/Shri/Smt./Ms.			
1.	Awijit Rakshit	16.09.1981	18.12.2008
2.	Rajesh Kumar Mishra	27.05.1977	18.12.2008
3.	Rajdeep Singh	19.08.1980	18.12.2008
4.	Hemant Gupta	05.09.1980	18.12.2008
5.	Amit Kumar Singh	05.10.1979	18.12.2008
6.	Bedobani Chaudhuri	21.01.1980	18.12.2008
7.	Sudhanshu Dhar Mishra	06.11.1979	18.12.2008
8.	Surabhi Sharma	16.02.1981	26.12.2008
9.	Alok Malviya	29.05.1979	18.12.2008
10.	Kalpna Singh	15.01.1981	18.12.2008
11.	Roli Khare	14.01.1980	18.12.2008
12.	Ajay Modi	23.12.1978	18.12.2008
13.	Priyanka Singh	26.11.1982	18.12.2008
14.	Richa Rastogi	22.09.1978	18.12.2008
15.	Rukmani Attri	23.08.1978	18.12.2008
16.	Prasoon Kabra	28.09.1980	18.12.2008
17.	Yogendra Mittal	26.01.1979	18.12.2008
18.	Abhishek Kumar	02.10.1983	18.12.2008
19.	Bhanwar Singh Ratnoo	13.01.1976	18.12.2008
20.	Rajeev Kumar	05.04.1977	18.12.2008
21.	Khairnar Amol Bharat	16.05.1977	05.01.2011
22.	Md. Shadab Ahmed	01.03.1979	29.04.2009
23.	Manu Chaurasia	02.05.1976	29.04.2009

1	2	3	4	1	2	3	4
	S/Shri/Smt./Ms.				S/Shri/Smt./Ms.		
24.	Madanappa Gari Earappa	15.03.1975	18.12.2008	27.	Shudhanshu Shekhar	01.03.1982	10.12.2009
25.	Ram Kumar Yadav	15.08.1972	18.12.2008	28.	Deepti Chandola	08.04.1980	10.12.2009
26.	Kumar Pranav	01.01.1973	18.12.2008	29.	Vaibhav Jain	04.10.1979	10.05.2010
27.	Subhash K.R.	24.10.1975	07.02.2009	30.	Mahesh Gopinath Jiwade	13.12.1978	10.12.2009
28.	Rajat Kumar Kureel	28.07.1975	29.04.2009	31.	Anchal Khandelwal	02.06.1980	10.12.2009
29.	Umesh Chandra Bharati	02.01.1977	18.12.2008	32.	Runi Pal	04.02.1977	10.12.2009
30.	T. Shering Ongda	22.01.1979	18.12.2008	33.	Pankaj Srivastava	05.07.1977	10.12.2009
31.	Poonam Sharma	04.07.1980	29.04.2009	34.	Koushlendra Tewari	25.09.1976	10.12.2009
2007 Batch (CSE 2006)				35.	Vikrant Pal Singh	20.04.1978	10.12.2009
1	2	3	4	36.	Amaninder Singh Dhindsa	22.04.1978	10.12.2009
	S/Shri/Smt./Ms.			37.	Bipin C.N.	04.05.1977	10.12.2009
1.	Namita Khurana	18.10.1981	10.12.2009	38.	Amit Kuamr Jain	04.09.1979	10.12.2009
2.	Mini Chandran U.	05.04.1981	10.05.2010	39.	Mundhe Vishwas Sopan Rao	24.01.1980	10.05.2010
3.	Dipi Agarwal	15.04.1980	10.12.2009	40.	M. Anitha	03.07.1980	10.12.2009
4.	Shweta Mishra	15.10.1980	10.12.2009	41.	Prashant Ranjan	11.03.1979	10.12.2009
5.	Abhishek Prabhat	17.12.1979	10.12.2009	42.	Saurab Kumar Rai	18.11.1978	10.05.2010
6.	Praveen Verma	09.09.1981	10.05.2010	43.	Mukesh Jain	26.03.1982	10.12.2009
7.	Apoorva Bhardwaj	08.08.1980	10.05.2010	44.	Amresh Kumar Tiwari	11.03.1980	10.05.2010
8.	V. Vidhyadhar	30.01.1977	10.12.2009	45.	M. S. Nethrapal	23.06.1980	10.05.2010
9.	Saurabh Singh	07.01.1982	10.12.2009	46.	Manav Bansal	27.10.1979	10.12.2009
10.	Arju Garodia	05.12.1979	10.12.2009	47.	Anupama Singla	25.12.1980	10.12.2009
11.	Sita Shrivastava	01.07.1980	10.12.2009	48.	Shahnawaz Ul Rahman	22.07.1982	10.05.2010
12.	N. Hemalatha	12.04.1981	10.05.2010	49.	Ram Tiwari	20.10.1977	10.12.2009
13.	Amit Katoch	18.03.1978	10.12.2009	50.	Amit Dua	07.10.1977	10.12.2009
14.	Manish Kumar Jha	15.01.1978	10.12.2009	51.	Deshpande Saurabh Girish	08.05.1981	10.05.2010
15.	Sumit Kumar Verma	11.09.1978	10.12.2009	52.	R.S. Arvindhakshan	29.04.1982	10.12.2009
16.	Divya K.J.	07.02.1981	10.12.2009	53.	Ram Prakash Maurya	12.07.1984	10.12.2009
17.	Alok Singh	02.09.1979	10.12.2009	54.	Monika Rana	19.08.1983	10.12.2009
18.	Raman Garg	25.08.1979	10.05.2010	55.	Vikas Singh	19.06.1979	10.12.2009
19.	Geetinder Mann	14.12.1983	10.05.2010	56.	Laganpreet Sandhu	03.03.1980	10.12.2009
20.	S. Sunder Rajan	15.12.1980	10.05.2010	57.	Farhat Khan	18.08.1978	10.05.2010
21.	Shaurya Shashwai Shukla	06.05.1982	10.12.2009	58.	Sandeep Kumar Mishra	16.06.1978	10.12.2009
22.	Veni Raj	02.05.1978	10.12.2009	59.	Aditya Shukla	20.06.1981	10.12.2009
23.	Mahender Bishnoi	12.08.1980	10.12.2009	60.	Ashish Tripathi	05.08.1981	10.12.2009
24.	Prashant Kumar Mishra	14.01.1981	10.12.2009				
25.	Rajat Mittal	20.03.1980	10.05.2010				
26.	Anup Singh	30.06.1981	10.05.2010				

1	2	3	4
	S/Shri/Smt./Ms.		
61.	Virender Singh	30.05.1980	10.12.2009
62.	Rajesh Mahajan	28.11.1977	10.12.2009
63.	Shinde Sudhakar Namdeo	25.05.1979	10.05.2010
64.	Suman Kumar	01.03.1977	10.12.2009
65.	Renuga Devi P.	07.05.1977	10.12.2009
66.	H. Kabila	17.04.1982	10.12.2009
67.	Kirti Sankratyayan	26.06.1977	10.12.2009
68.	Ram Prakash Rastogi	17.02.1977	10.12.2009
69.	Yashvendra Singh	18.11.1980	10.12.2009
70.	C. Yamuna	01.12.1978	10.12.2009
71.	Raghu Nath	05.02.1975	10.05.2010
72.	Shabana Praveen	11.06.1974	10.12.2009
73.	Meenakashi Dohare	30.05.1982	10.12.2009
74.	Jenardhanan V.	03.02.1975	10.12.2009
75.	V. Justin	25.05.1975	10.12.2009
76.	Rajni Rani Roy	29.08.1977	10.12.2009
77.	Samrat Rahi	01.03.1984	10.12.2009
78.	Tarundeep	29.01.1982	10.12.2009
79.	Pavuna Sundari E.	12.06.1978	10.12.2009
80.	Anoop Singh	22.01.1978	10.12.2009
81.	Maimun Nisha Ansari	13.08.1978	10.12.2009
82.	B. Ramanjaneyulu	26.04.1981	10.12.2009
83.	Purshottam Kumar	09.04.1980	10.05.2010
84.	Vijyendra Kumar	16.12.1978	10.12.2009
85.	Bobde Amit Ashokrao	23.04.1979	10.12.2009
86.	Shivanand H. Kalakeri	21.07.1975	10.12.2009
87.	Das Righnesh Kalpesh	26.03.1978	10.12.2009
88.	Murali Mohan M.	01.06.1979	10.12.2009
89.	Sanjai Kumar Yadav	02.12.1978	10.12.2009
90.	B. Naveen Kumar	15.05.1978	10.12.2009
91.	Amit Raj	02.12.1979	10.12.2009
92.	P. Muthushankar	17.06.1979	10.12.2009
93.	Rajesh Kumar Yadav	30.10.1980	10.12.2009
94.	Kiran D.	10.04.1979	10.12.2009
95.	Narendra Kumar Naik	15.01.1980	10.12.2009

1	2	3	4
	S/Shri/Smt./Ms.		
96.	Abhishek Meshram	15.09.1981	10.05.2010
97.	Huidrom Robindro Singh	05.07.1979	10.12.2009
98.	Mrinal Kumar Das	26.06.1975	10.12.2009
99.	Inder Solanki	14.06.1977	10.12.2009
100.	Pallavi	07.02.1983	10.12.2009
101.	Dhoke Ajay Gopalrao	22.04.1978	10.05.2010
102.	Parmar Alpeshkumar Trikamalal	09.10.1976	10.12.2009
103.	Poonam Rai	08.08.1973	10.12.2009
104.	Uma Shankar Prasad	27.02.1977	10.12.2009
105.	Mohit Mrinal	01.10.1979	10.12.2009
106.	Waghmare Vipul Digambar	15.10.1979	10.05.2010
107.	Shashi Kajle	04.02.1982	10.12.2009
108.	Chanchal Meena	15.08.1982	10.12.2009
109.	Kranti	05.05.1980	10.12.2009
110.	Rintey Renthlei	19.01.1981	10.05.2010
111.	Prem Prakash Meena	08.08.1978	10.12.2009
112.	Bimal Kumar Meena	10.08.1976	10.12.2009
113.	M.C. Omi Ningshen	23.08.1976	10.12.2009
114.	Satyapal Singh Meena	25.09.1979	10.12.2009
115.	Roshanta Kumari Meena	30.06.1980	10.12.2009
116.	Siddharth Bhim Singh Meena	01.01.1980	10.12.2009
117.	Kumar Avikal Manu	04.11.1977	10.12.2009
118.	Sumit Kaur	19.02.1978	10.12.2009
119.	Pooja Swaroop	03.04.1978	10.12.2009

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

The 21st June 2012

No. 11 of 2012 (F. No. A-32011/04/2008-Ad.VI)—
Shri Abani Kanta Nayak (96013), Joint Commissioner of
Income Tax is hereby placed in the Selection Grade (Non-
Functional) in the PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of
Rs. 8,700/- with effect from 01.01.2009 i.e. date of grant to his
immediate junior.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

The 22nd June 2012

No. 12 (F. No. A-32011/01/2012-Ad.VI)—The following Joint Commissioners of Income Tax are hereby placed in the Selection Grade (Non-Functional) in the PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the date(s) indicated against each :—

Sl. No.	Name	Civil Code	Date from which placed in the Selection Grade (Non-Functional)
1	2	3	4
	S/Shri/Smt./Ms.		
1.	K. K. Jaiswal	89004	01.01.2012
2.	O. P. Aggarwal	97520-A	01.01.2012
3.	Ekta Visnoi	99001	01.01.2012
4.	Rajeev Benjwal	99003	01.01.2012
5.	Sumana Sen	99005	01.01.2012
6.	Deepak Tiwari	99006	01.01.2012
7.	Neehar Ranjan Pandey	99008	01.01.2012
8.	Chittaranjan Dash	99009	01.01.2012
9.	Ashima Neb	99010	01.01.2012
10.	Meera Srivastava	99011	01.01.2012
11.	Swapana Nanu Ambatt	99012	01.01.2012
12.	G. Krishnan	99513	01.01.2012
13.	Naveen Gupta	99013	01.01.2012
14.	Shashi Bhushan Shukla	99015	01.01.2012
15.	Neerja Pradhan	99016	01.01.2012
16.	Navneet Manohar	99017	01.01.2012
17.	Sobhan Kar	99018	01.01.2012
18.	Kuruwila M. George	99519	01.01.2012
19.	Sanjog Kapoor	99019	01.01.2012
20.	Naina Soin Kapil	99022	01.01.2012
21.	Srujani Mohanty	99023	01.01.2012
22.	Ran Singh	99024	01.01.2012
23.	Ch. Venkata Gopi Nath	99025	01.01.2012
24.	M. Rajasekhar	99028	01.01.2012
25.	Naresh Saka	99029	01.01.2012
26.	Anil Kumar P. Chaware	99030	01.01.2012
27.	P. W. Athley	99530	01.01.2012

1	2	3	4
	S/Shri/Smt./Ms.		
28.	S. Murali Mohan	99033	01.01.2012
29.	Vijay Kumar Chadha	99034	01.01.2012
30.	Komali Krishna S.	99035	01.01.2012
31.	Aarsi Prasad	99037	01.01.2012
32.	P. V. Pradeep Kumar	99039	01.01.2012
33.	Hemant Kumar C. Lewa	99040	01.01.2012
34.	Shekhar L. Gajbhaiye	99041	01.01.2012
35.	Sunil Gautam	99042	01.01.2012
36.	Ajay Kumar	99043	01.01.2012
37.	Rajnish D. Burman	99044	01.01.2012
38.	I. Kitto Zimomi	99045	01.01.2012

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 26th June 2012

No. A-12011/18/2006-HR.II—The President is pleased to appoint Shri Vijay Ranjan Singh, Indian Forest Service (KN:1996) as Director in the Department of Fertilizers under the Ministry of Chemicals & Fertilizers for a period of five years, with effect from the forenoon of 25th June, 2012 or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of DoPT's OM No. 9/9/2012-EO(MM.I) dated 15.06.2012 & Government of Karnataka's Notification No. DPAR 56 SFP 2012 dated 22.06.2012.

2. He is designated as Director (Fert.).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 28th June 2012

No. A-12012/3/2011-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 3/3/2011-CS-II(A) dated the 20th March, 2012, the following Substantive Stenographers Grade 'A&B' (Merged)(Private Secretary) of CSSS Cadre PS, now working as Principal Private Secretary on ad hoc basis, are included in the Select List 2010 of the 'Principal Private Secretary' Grade of Central Secretariat Stenographer Service :—

1. Shri B. L. Chhibber (Sl. No. 18/SL 1991)
2. Smt. Sudarshan Mendiratta (Sl. No. 184/SL 1993)
3. Shri Tilak Raj (Sl. No. 274/SL 1994)
4. Smt. Eva Mitra (Sl. No. 347/SL 1995)
5. Shri Shankar Kumar Sah (Sl. No. 532/SL 1997), and
6. Shri Mukesh Harit (Sl. No. 552/SL 1997)

It is certified that any vigilance case and disciplinary proceedings are neither pending nor contemplated against them. It is also confirmed that the above officers have submitted the Annual Property Returns.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 20th June 2012

No. A-11011/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Deepak Kumar, IAS (UP:90) as Joint Secretary in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 20th June, 2012 in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 12th June 2012

No. A.32013/1/2012-Estt.I—Consequent on inclusion of their name in the Select List of Principal Private Secretary Grade of CSSS for the year 2010 vide DoPT's O.M. No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20th March 2012, the President is pleased to appoint the following officers to the grade of Principal Private Secretary of CSSS on regular basis with effect from the forenoon of 20th March, 2012 :—

1. Shri J. N. Sharma
2. Ms. Suman Sood
3. Ms. Sunit P. Chaudhary
4. Ms. Madhu Goyal
5. Shri Satish Kumar
6. Shri S. K. Mehra
7. Ms. Sushil Verma

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 19th June 2012

No. 32012/2/2011-PP-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. R. Murli, Assistant Director (Entomology) to the post of Deputy Director (Entomology) in Pay Band-3 plus Grade Pay Rs. 6,600/- on promotion basis in the Directorate

of Plant Protection, Quarantine and Storage w.e.f. 01.06.2012 (F.N.) until further orders.

VANDANA JAIN, Dir. (PP-I)

New Delhi, the 8th May 2012

No. 32011/01/2012-E.II—The President is pleased to appoint Shri Gorelal Dewaker, Assistant Director (Seeds) in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) as Assistant Commissioner (Quality Control & Certification/Seeds Development) (GCS Group 'A' Gazetted) in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on promotion basis in the same Department with effect from the forenoon of 27.04.2012, until further orders.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 15th May 2012

No. 32011/5/2012-E.II—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri C. M. Pandey, Deputy Commissioner (NRM/RFS) to the post of Additional Commissioner (NRM/RFS) in the Department of Agriculture and Cooperation in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/-, PB-4 (pre-revised Pay Scale of Rs. 14,300-400-18,300/-) on promotion basis w.e.f. the forenoon of 1st May, 2012.

K. SANJAYAN, Under Secy.

No. 32011/5/2012-E.II—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri B. Rath, Deputy Commissioner (NRM/RFS) to the post of Additional Commissioner (NRM/RFS) in the Department of Agriculture and Cooperation in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/-, PB-4 (pre-revised Pay Scale of Rs. 14,300-400-18,300/-) on promotion basis w.e.f. the forenoon of 1st May, 2012.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 17th May 2012

No. 32011/5/2012-E.II—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. M. Tamil Selvan, Director, Directorate of Arecanut & Spices Development, Calicut, to the post of Additional Commissioner (Horticulture-Fruit) in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/-, PB-4 (pre-revised Pay Scale of Rs. 14,300-400-18,300/-) in the Department of Agriculture and Cooperation on promotion basis w.e.f. the forenoon of 16th May, 2012.

K. SANJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 13th June 2012

No. A.19012/7/2012-EA—The President is pleased to appoint Shri K. C. Bharti, Economic Officer, on his promotion to Grade-IV (Junior Time Scale) of Indian Economic Services (IES) to the post of Research Officer (Assistant Director) in the Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/-, with effect from the afternoon of 31st May, 2012.

A. K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 26th June 2012

No. 12-1/2011-M&T(Admn.)—The President is pleased to appoint S/Shri H. L. Yadav and Mahesh Chandra as Senior Agricultural Engineer (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) Farm Machinery Training and Testing Institute, by promotion on regular basis in PB-3, in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 15.03.2012 (FN) and 03.04.2012 (FN) respectively.

B. B. BHAGAT, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 26th June 2012

No. A-19011/12/2012-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Gokul Chandra Pati, IAS (OR:78) as Secretary in the Apex Scale of Rs. 80,000/- (Fixed) w.e.f. the forenoon of 01.07.2012, on his posting in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries vide DoP&T's Order No. 9/26/2012-EO (SM.I) dated 26th May, 2012.

R. S. JAYAL, Under Secy.

The 28th June 2012

No. A-15012/09/2012-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri Rudhra Gangadharan, IAS (KL:1975), Secretary in this Department retires from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2012.

R. S. JAYAL, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATION & IT

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATION)

New Delhi-110001, the 7th January 2010

Sub : Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2008.

No. 7-03/2007-SEA.I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2008 conducted by the Union Public

Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Shri Marut Tripathi [Rank No. 560] [General] to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100+5,400/- on the following terms:—

- (i) The post is permanent but he/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be

considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The allocation is Provisional and subject to the outcome of the SLP No. 13571-13572/2008 filed in the Hon'ble Supreme Court against the Order the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 1814-1815/2008.

5. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICEF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

AMITABH RANJAN SINHA, Dir. (SEA)

To

Shri Marut Tripathi,
M5-1/28, Sector-A,
Sitapur Road Scheme,
Aligarh, Lucknow-226021

Sub : Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2008.

No. 7-03/2007-SEA.I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2008 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Arulmathi S. [Rank No. 638] [O.B.C.] to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100+5,400/- on the following terms:—

- (i) The post is permanent but he/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has

married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICEF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and subject to verification of the caste certificate by the appropriate District Authority.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The allocation is Provisional and subject to the outcome of the SLP No. 13571-13572/2008 filed in the Hon'ble Supreme Court against the Order the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 1814-1815/2008.

5. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICEF, Ghaziabad. The

offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

AMITABH RANJAN SINHA, Dir. (SEA)

To

Ms. Arulmathi S.,
No. 202F, Palani Andavar Nagar,
Sivagiri Patty, Palani TK,
Dindigul. DT Tamil Nadu-624601

Sub : Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2008.

No. 7-03/2007-SEA.I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2008 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Shri Poshan Lal Chandrakar [Rank No. 656] [O.B.C.] to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100+5,400/- on the following terms:—

- (i) The post is permanent but he/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and subject to verification of the caste certificate by the appropriate District Authority.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The allocation is Provisional and subject to the outcome of the SLP No. 13571-13572/2008 filed in the Hon'ble Supreme Court against the Order the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 1814-1815/2008.

5. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. The offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

AMITABH RANJAN SINHA, Dir. (SEA)

To

Shri Poshan Lal Chandrakar,
Gram-Mohad, P.O. Mohara,
Distt. Rajnandgaon,
Chattisgarh-491441

Sub : Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2008.

No. 7-03/2007-SEA.I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2008 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Mohd. Shahid Alam [Rank No. 540] [General] to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance

Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100+5,400/- on the following terms:—

- (i) The post is permanent but he/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The allocation is Provisional and subject to the outcome of the SLP No. 13571-13572/2008 filed in the Hon'ble Supreme Court against the Order the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 1814-1815/2008.

5. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

AMITABH RANJAN SINHA, Dir. (SEA)

To

Mohd. Shahid Alam,
E-82/83, Third Floor,
Gandhi Vihar,
Mukherjee Nagar,
New Delhi-110009.

Sub : Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2008.

No. 7-03/2007-SEA.I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2008 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Shri Pradeep Kumar Shukla [Rank No. 427] [General] to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100+5,400/- on the following terms:—

- (i) The post is permanent but he/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place life time of such spouse, the

appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICE. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and verification of certain documents relating to Educational Qualifications etc. by the Department.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The allocation is Provisional and subject to the outcome of the SLP No. 13571-13572/2008 filed in the Hon'ble Supreme Court against the Order of the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 1814-1815/2008.

5. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICE, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

AMITABH RANJAN SINHA, Dir. (SEA)

To

Shri Pradeep Kumar Shukla,
1-N/5-C Tilak Nagar,
Allahpur, Allahabad,
U.P.-211006.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION
TECHNOLOGY
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 29th June 2012

No. PF/559/NIC/2012/Adm-I—Shri A. V. Rajagopal, Deputy Director, Emp. Code : 559, National Informatics Centre-Hqrs., New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2012 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Joint Director (Adm-I)

No. PF/563/NIC/2012/Adm-I—Shri Braham Prakash Saini, Deputy Director, Emp. Code : 563, National Informatics Centre-Hqrs., New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2012 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Joint Director (Adm-I)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 19th June 2012

No. ERB-I/2011/2/68—Shri Om Prakash, SG/IRTS, Director, TT(Co-ordination), Railway Board on his promotion to Senior Administrative Grade has been appointed as Executive Director, TT(Co-ordination), Railway Board with effect from the forenoon of 08.06.2012.

R. C. JAT, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2010/2/27—Smt. Archana Srivastava, SG/IRTS, Director, Traffic (Punctuality), Railway Board on his promotion to Senior Administrative Grade has been appointed as Executive Director(LRDSS), Railway Board with effect from the afternoon of 08.06.2012.

R. C. JAT, Secy.
(Railway Board)

The 20th June 2012

No. ERB-I/2011/2/13—The following Assistants of Railway Board Secretariat Service (RBSS), have been

promoted as Section Officers of RBSS in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay of Rs. 4,800/- on adhoc basis with effect from the date indicated against each :—

S. No.	Name	Date of Joining
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Bhagat Singh	25.05.2012 (F.N.)
2.	Rajendra Prasad-I	25.05.2012 (F.N.)
3.	Bhagat Singh	26.04.2012 (F.N.)
4.	Dharam Vir Singh	28.05.2012 (F.N.)

R. C. JAT, Secy.
(Railway Board)

The 22nd June 2012

No. ERB-I/2011/2/32—The following Director's Grade officers of Railway Board Secretariat Service (RBSS), have been promoted to Senior Administrative Grade (Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000/-) of Railway Board Secretariat Service (RBSS) with effect from the date indicated against each :—

S. No.	Name	Date of Joining
	(S/Shri/Ms.)	
1.	R. K. Meena	17.05.2012 (F.N.)
2.	V. Vaidehi	18.05.2012 (F.N.)
3.	Maneesh Kumar	29.05.2012 (F.N.)
4.	N. Soman	17.05.2012 (F.N.)
5.	P. Rajashekharan	17.05.2012 (F.N.)

R. C. JAT, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 20th June 2012

No. 9/2012. F. No. 25/1(7)/2012-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2010, the President is pleased to appoint Shri Mayank Singh Chetan to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 pay scale of Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 6.02.2012 (FN).

2. Shri Mayank Singh Chetan will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

No. 8/2012. F. No. 25/1(14)/2012-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2010, the President is pleased to appoint Shri Satish Jain to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 pay scale of Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 9.03.2012 (FN).

2. Shri Satish Jain will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 22nd June 2012

No. A-32014/01/2008-Adm.I (Pt.)—The President is pleased to extend the appointment of the following Assistants of CSS Cadre of the Ministry of Labour & Employment to the Grade of Section Officer (Group 'B'/Gazetted) (Pay Band-2 : Rs. 9,300—34,800/-, Grade Pay Rs. 4,800/-) on ad-hoc basis in this Ministry for a period upto 31.12.2012 or till the date of their retirement, whichever is earlier, in pursuant to DoP&T's O.M. No. 6/5/2011-CS-I (S), dated 29.5.2012:—

No.	Name	Select List Year	Period upto which ad-hoc appointment on the post of Section Officer is extended
1	2	3	4
	(S/Shri/Smt./Ms.)		
1.	P. V. Surya Rao	1989	31.12.2012
2.	B. D. Sharma	1992	31.12.2012
3.	S. P. Goyal	1992	31.08.2012
4.	N. K. Joshi	1993	31.12.2012
5.	Naresh Kumar	1994	31.12.2012
6.	Om Prakash (SC)	1994	31.12.2012
7.	Rita Singh	1994	31.12.2012
8.	Sheesh Ram (SC)	1994	31.12.2012
9.	Vijay Kumar	1995	31.12.2012
10.	Saroj Bala Bhatia	1995	31.12.2012
11.	V. C. Tripathi	1995	31.12.2012
12.	Yogendra Vithal Randive (ST)	1995	31.12.2012
13.	B. T. Chichulkar (ST)	1998	31.12.2012
14.	Chandra Kanta Mewar	2000	31.12.2012

2. The appointment of the above named Assistants to the post of Section Officers on ad-hoc basis is subject to the following conditions:—

- (a) The period of ad-hoc promotion would be upto 31.12.2012 or till date of their retirement or till the regular Section Officers are made available or until further orders, whichever is earlier.
- (b) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim Seniority in the Section Officers Grade of CSS.

- (c) Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by the DOP&T.

A. K. THAKUR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012